


# Series EF1GH/3





SET~1



मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें ।
Candidates must write the Q.P. Code on
the title page of the answer-book.

# लेखाशास्त्र ACCOUNTANCY \*

	<u> </u>
	धिकतम अंक : 80
Time allowed : 3 hours Maxim	um Marks : 80
नोट / NOTE :	
(i)     कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 39 हैं ।	
Please check that this question paper contains <b>39</b> printed pages.	
(ii)   प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी मुख-पृष्ठ पर लिखें ।	ं उत्तर-पुस्तिका के
Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be w page of the answer-book by the candidate.	ritten on the title
(iii)     कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 34 प्रश्न हैं ।	
Please check that this question paper contains <b>34</b> questions.	
(iv)     कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में प्रश्न लिखें ।	का क्रमांक अवश्य
Please write down the serial number of the question in the answer-book b it.	efore attempting
(v) इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है   प्रश पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा   10.15 बजे से 10.30 बजे तक छात्र वे पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे	विल प्रश्न-पत्र को
15 minute time has been allotted to read this question paper. The questi distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the studer question paper only and will not write any answer on the answer-book dur	nts will read the
67/3/1 ~~~ Page 1	<i>P.T.O.</i>

Get More Learning Materials Here : 📕



सामान्य निर्देश:

निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख़्ती से पालन कीजिए :

- (i) इस प्रश्न-पत्र में 34 प्रश्न हैं । सभी प्रश्न अनिवार्य हैं ।
- (ii) यह प्रश्न-पत्र दो भागों में विभाजित है भाग क तथा भाग ख ।
- (iii) भाग क सभी परीक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है।
- (iv) **भाग ख** में दो विकल्प हैं अर्थात् (1) वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, तथा (2) अभिकलित्र लेखांकन । परीक्षार्थियों को **भाग ख** में चयनित विषय के अनुसार केवल **एक** ही विकल्प के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं ।
- (v) प्रश्न संख्या 1 से 16 तथा 27 से 30 तक एक-एक अंक के प्रश्न हैं ।
- (vi) प्रश्न संख्या 17 से 20, 31 तथा 32 तक तीन-तीन अंकों के प्रश्न हैं ।
- (vii) प्रश्न संख्या 21, 22 तथा 33 तक चार-चार अंकों के प्रश्न हैं।
- (viii) प्रश्न संख्या 23 से 26 तथा 34 तक छ: -छ: अंकों के प्रश्न हैं ।
- (ix) प्रश्न-पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है । यद्यपि**, एक–एक** अंक के 7 प्रश्नों में, **तीन–तीन** अंकों के 2 प्रश्नों में, **चार–चार** अंकों के 1 प्रश्न में तथा छ:–छ: अंकों के 2 प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन दिया गया है ।

#### भाग क

# (साझेदारी फर्मों तथा कम्पनियों के लिए लेखांकन)

 (i) केशव तथा करण एक फर्म में साझेदार थे तथा लाभों का विभाजन बराबर-बराबर कर रहे थे । फर्म के औसत लाभों का पूँजीकृत मूल्य ₹ 18,00,000 था । फर्म की परिसम्पत्तियाँ (ख्याति को छोड़कर) ₹ 20,00,000 तथा देयताएँ ₹ 5,00,000 थीं । औसत लाभों के पूँजीकरण विधि द्वारा फर्म की ख्याति का मूल्य होगा :

 (a) ₹ 2,00,000
 (b) ₹ 3,00,000
 (c) ₹ 4,00,000
 (d) ₹ 3,50,000

#### अथवा

(ii) क तथा ख एक फर्म में साझेदार थे तथा 3 : 2 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे । 1 अप्रैल, 2021 को उनके पूँजी खातों में क्रमश: ₹ 1,50,000 तथा ₹ 2,00,000 के शेष थे । साझेदारी संलेख में साझेदारों की पूँजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज का प्रावधान था । 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष में फर्म को ₹ 10,000 की हानि हुई । क की पूँजी पर ब्याज होगा : (a) ₹ 15,000 (b) ₹ 9,000

(d)

Page 2

67/3/1

Get More Learning Materials Here : 💶

शून्य

(c)

₹ 6,000

🕀 www.studentbro.in

1

# **General Instructions :**

Read the following instructions very carefully and strictly follow them :

- (i) This question paper contains **34** questions. **All** questions are **compulsory**.
- (ii) This question paper is divided into **two** parts **Part A** and **Part B**.
- (iii) **Part A** is **compulsory** for all candidates.
- (iv) Part B has two options i.e. (1) Analysis of Financial Statements, and
   (2) Computerised Accounting. Candidates must attempt only one of the given options as per the subject opted in Part B.
- (v) Questions no. 1 to 16 and 27 to 30 carry 1 mark each.
- (vi) Questions no. 17 to 20, 31 and 32 carry 3 marks each.
- (vii) Questions no. 21, 22 and 33 carry 4 marks each.
- (viii) Questions no. 23 to 26 and 34 carry 6 marks each.
- (ix) There is no overall choice. However, an internal choice has been provided in
   7 questions of one mark, 2 questions of three marks, 1 question of four marks and 2 questions of six marks.

## PART A

## (Accounting for Partnership Firms and Companies)

 (i) Keshav and Karan were partners in a firm sharing profits equally. The capitalised value of average profits of the firm was ₹ 18,00,000. Assets of the firm were ₹ 20,00,000 (excluding goodwill) and Liabilities were ₹ 5,00,000. The value of goodwill of the firm by capitalisation of average profits method will be :

(a)	₹ 2,00,000	(b)	₹ 3,00,000
(c)	₹ 4,00,000	(d)	₹ 3,50,000

#### OR

(ii) A and B were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3 : 2. On 1<sup>st</sup> April, 2021 the balances in their capital accounts were ₹ 1,50,000 and ₹ 2,00,000 respectively. The partnership deed provided that interest on partners capital will be allowed @ 10% per annum. During the year ended 31<sup>st</sup> March, 2022, the firm incurred a loss of ₹ 10,000. Interest on A's capital will be :

Page 3

(a)	₹ 15,000	(b)	₹ 9,000
(c)	Nil	(d)	₹ 6,000

67/3/1

1

1

P.T.O.



- 2. (i) \_\_\_\_\_ साझेदारों के मध्य साझेदारी व्यवसाय को चलाने का आधार है।
  - (a) प्रस्ताव (b) अनुबंध
  - (c) समझ (d) स्वीकार्यता

अथवा

(ii) विद्यमान साझेदारों के बीच लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के समय साझेदारों के पूँजी खातों में 'संचयों' को निम्नलिखित अनुपात में हस्तान्तरित किया जाता है :

- (a) त्याग अनुपात
- (b) अधिलाभ अनुपात
- (c) पुराना लाभ विभाजन अनुपात
- (d) नया लाभ विभाजन अनुपात

 3. (i) महक तथा रवीश एक फर्म में साझेदार थे। फर्म के विघटन के समय महक द्वारा फर्म को दिया गया ऋण ₹ 30,000 था, रवीश द्वारा दिया गया ऋण ₹ 15,000 था तथा श्रीमति रवीश द्वारा दिया गया ऋण ₹ 10,000 था। सर्वप्रथम भुगतान किया जाएगा :

- (a) रवीश के ऋण का
- (b) महक के ऋण का
- (c) श्रीमति रवीश के ऋण का
- (d) महक के ऋण तथा रवीश के ऋण का उनकी ऋण राशि के अनुपात में

#### अथवा

(ii) सुरभि तथा लीना एक फर्म में साझेदार थे तथा 5 : 3 के अनुपात में लाभ-हानि का विभाजन करते थे । आशी को फर्म के लाभों में  $\frac{1}{4}$  भाग के लिए एक नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया गया । आशी ने अपने भाग का  $\frac{3}{5}$  भाग सुरभि से ग्रहण किया । निम्नलिखित में से आशी ने कितना भाग लीना से ग्रहण किया :

(a)	$\frac{1}{10}$	(b)	$\frac{3}{20}$
(c)	$\frac{2}{5}$	(d)	$\frac{3}{8}$

67/3/1

~~~

Get More Learning Materials Here :

Page 4



1

1

1

- **2.** (i) \_\_\_\_\_ is the basis of relationship between the partners to run the partnership business.
  - (a) Offer (b) Agreement
  - (c) Understanding (d) Acceptance **OR**
  - (ii) At the time of change in profit sharing ratio among existing partners, 'Reserves' are transferred to Partners' Capital Accounts in the following ratio :
    - (a) Sacrificing ratio
    - (b) Gaining ratio
    - (c) Old profit sharing ratio
    - (d) New profit sharing ratio
- 3. (i) Mehak and Ravish were partners in a firm. On dissolution of the firm, the loan given by Mehak to the firm was ₹ 30,000, by Ravish was ₹ 15,000, and by Mrs. Ravish was ₹ 10,000. The first payment will be made for :
  - (a) Ravish's loan
  - (b) Mehak's loan
  - (c) Mrs. Ravish's loan
  - (d) Mehak's loan and Ravish's loan in the ratio of their loan amount

#### OR

(ii) Surbhi and Leena were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5 : 3. Ashi was admitted as a new partner for  $\frac{1}{4}$  share in the profits of the firm. Ashi acquired  $\frac{3}{5}$  of her share from Surbhi. From the following, how much share did Ashi acquire from Leena :

| (a) | $\frac{1}{10}$ | (b) | $\frac{3}{20}$ |
|-----|----------------|-----|----------------|
| (c) | $\frac{2}{5}$  | (d) | $\frac{3}{8}$  |

67/3/1

~~

Page 5

P.T.O.

1

1

1

1

Get More Learning Materials Here :

CLICK HERE

4.

- (i) सनबीम लिमिटेड ने ₹ 100 प्रत्येक के 20,000, 11% ऋणपत्रों का निर्गमन 10% प्रीमियम पर किया, जिनका शोधन 5% प्रीमियम पर किया जाना है । 'ऋणपत्रों के निर्गमन पर हानि खाते' के नाम पक्ष में खतौनी की जाएगी :
  - (a) ₹ 3,00,000
  - (b) ₹ 2,00,000
  - (c) ₹ 1,00,000
  - (d) ₹ 22,00,000

#### अथवा

- (ii) नरगिस लिमिटेड ने गौरी लिमिटेड से ₹ 8,00,000 की परिसम्पत्तियों का क्रय किया तथा ₹ 2,00,000 की देयताएँ लीं । भुगतान ₹ 100 प्रत्येक के 8% ऋणपत्रों को 20% अधिमूल्य पर निर्गमन करके किया जाएगा । निर्गमित किए जाने वाले ऋणपत्रों की संख्या होगी :
  - (a) 50,000
  - (b) 5,000
  - (c) 6,000
  - (d) 6,00,000

5. 'संचित पूँजी' के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है ?

- (a) यह अयाचित पूँजी का वह भाग है जिसे केवल कम्पनी के समापन के समय ही माँगा जाता है।
- (b) यह अभिदत्त पूँजी का वह भाग है जिसे अंशों पर माँग लिया गया है।
- (c) यह याचित पूँजी का वह भाग है जिसे अंशधारियों से वास्तव में प्राप्त कर लिया गया है।
- (d) यह अधिकृत पूँजी का वह भाग है जिसे वास्तव में जनता को अभिदान के लिए निर्गमित किया गया है।

6. गोपाल, कृष्णा तथा गोविंद साझेदार हैं तथा 5 : 4 : 3 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते हैं । 1 अप्रैल, 2022 को कृष्णा सेवानिवृत्त हो गया । गोपाल तथा गोविंद ने उसे ₹ 1,20,000 का भुगतान करके लाभ में उसके भाग का क्रय कर लिया । ₹ 80,000 का भुगतान गोपाल तथा ₹ 40,000 का भुगतान गोविंद ने किया । अधिलाभ अनुपात होगा :

Page 6

| (a) | 5:3 | (b) | 4:3 |
|-----|-----|-----|-----|
| (c) | 1:1 | (d) | 2:1 |

67/3/1

Get More Learning Materials Here : **\_** 





1

1

1

- 4. (i) Sunbeam Ltd. issued 20,000, 11% debentures of ₹ 100 each at a premium of 10%, redeemable at a premium of 5%. The 'Loss on Issue of Debentures Account' will debited by :
  - (a) ₹ 3,00,000
  - (b) ₹ 2,00,000
  - (c) ₹ 1,00,000
  - (d) ₹ 22,00,000

# OR

- (ii) Nargis Ltd. purchased assets of ₹ 8,00,000 and took over liabilities of ₹ 2,00,000 from Gauri Ltd. The payment was made by issue of 8% Debentures of ₹ 100 each at a premium of 20%. Number of debentures issued will be :
  - (a) **50,000**
  - (b) **5,000**
  - (c) 6,000
  - (d) 6,00,000
- **5.** Which of the following statements is true for 'Reserve Capital' ?
  - (a) It is a portion of the uncalled capital to be called only in the event of winding up of the company.
  - (b) It is a part of the subscribed capital which has been called-up on the shares.
  - (c) It is that portion of the called-up capital which has been actually received from the shareholders.
  - (d) It is that part of the authorised capital that is actually issued to the public for subscription.
- 6. Gopal, Krishna and Govind are partners sharing profits and losses in the ratio of 5 : 4 : 3. Krishna retired on 1<sup>st</sup> April, 2022. Gopal and Govind purchased her share of profit by giving her ₹ 1,20,000, ₹ 80,000 being paid by Gopal and ₹ 40,000 by Govind. The gaining ratio will be :
- (a)5:3(b)4:3(c)1:1(d)2:167/3/1 $\sim \sim \sim$ Page 7

P.T.O.

1

Get More Learning Materials Here : 💶



1

1

8.

7. अभिकथन (A): साझेदारों के ऋण पर ब्याज की खतौनी लाभ-हानि खाते के नाम पक्ष में की जाती है।

कारण (R) : साझेदारों के ऋण पर ब्याज लाभ के विरुद्ध प्रभार है।

उपर्युक्त अभिकथन (A) तथा कारण (R) के आधार पर निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए :

- (a) अभिकथन (A) सही है तथा कारण (R) ग़लत है ।
- (b) अभिकथन (A) ग़लत है तथा कारण (R) सही है ।
- (c) दोनों अभिकथन (A) तथा कारण (R) सही हैं।
- (d) दोनों अभिकथन (A) तथा कारण (R) ग़लत हैं।

(i) ₹ 10 के एक अंश, जिसे ₹ 2 प्रति अंश अधिमूल्य पर निर्गमित किया गया है, जिस पर ₹ 8 प्रति अंश (प्रीमियम सहित) माँग लिए गए हैं तथा ₹ 6 प्रति अंश (प्रीमियम सहित) प्राप्त कर लिए गए हैं, का हरण कर लिया । अंश पूँजी खाते के नाम पक्ष में खतौनी की जाएगी :

- (a)  $\gtrless 10$  (b)  $\gtrless 8$
- (c)  $\gtrless$  12 (d)  $\gtrless$  6

#### अथवा

- (ii) ₹ 100 के एक अंश का, जिस पर ₹ 70 प्राप्त कर लिए गए हैं, ₹ 30 की अंतिम याचना का भुगतान न करने के कारण, हरण कर लिया । वह न्यूनतम राशि जिस पर इस अंश को पुनर्निर्गमित किया जा सकता है, है :
  - (a)  $\neq$  70 (b)  $\neq$  30

(c)  $\gtrless$  100 (d)  $\gtrless$  130

निम्नलिखित काल्पनिक स्थिति को पढ़िए तथा इसमें दी गई सूचना के आधार पर प्रश्न संख्या 9 तथा 10 के उत्तर दीजिए :

अनु, चारु तथा दिव्या साझेदार हैं तथा 2 : 1 : 2 के अनुपात में लाभ-हानि का विभाजन करते हैं । उनकी पूँजी क्रमश: ₹ 5,00,000, ₹ 3,00,000 तथा ₹ 2,00,000 थीं । अनु ने व्यक्तिगत रूप से यह गारंटी दी कि किसी भी वर्ष में दिव्या के लाभ का भाग सभी साझेदारों को 5% प्रति वर्ष की दर से पूँजी पर ब्याज देने के बाद ₹ 75,000 से कम नहीं होगा । 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ ₹ 2,00,000 था ।

67/3/1

/1

Page 8

**CLICK HERE** 

≫

1

1

🕀 www.studentbro.in

7. Assertion (A): Interest on partners' loan is debited to Profit and Loss Account.

Reason(R): Interest on partners' loan is a charge against profits. On the basis of the above Assertion (A) and Reason (R), choose the correct option from the following :

- (a) Assertion (A) is correct and Reason (R) is wrong.
- (b) Assertion (A) is wrong and Reason (R) is correct.
- (c) Both Assertion (A) and Reason (R) are correct.
- (d) Both Assertion (A) and Reason (R) are wrong.

8. (i) A share of ₹ 10 issued at a premium of ₹ 2 per share on which ₹ 8 per share (including premium) have been called and ₹ 6 per share (including premium) is received, is forfeited. Share Capital Account will be debited by :

|     | OD   |     |    |
|-----|------|-----|----|
| (c) | ₹ 12 | (d) | ₹6 |
| (a) | ₹ 10 | (b) | ₹8 |

#### OR

- (ii) A share of ₹ 100 on which ₹ 70 has been received is forfeited for non-payment of final call of ₹ 30. The minimum price at which this share can be re-issued is :
  - (a)
     ₹ 70
     (b)
     ₹ 30

     (c)
     ₹ 100
     (d)
     ₹ 130

Read the following hypothetical situation and answer questions number **9** and **10** on the basis of information given :

Anu, Charu and Divya are partners sharing profits and losses in the ratio of 2 : 1 : 2. Their capitals were ₹ 5,00,000, ₹ 3,00,000 and ₹ 2,00,000 respectively. Anu personally guaranteed that in any year, Divya's share of profit after allowing interest on capital to all partners @ 5% p.a. would not be less than ₹ 75,000. The profit for the year ending  $31^{st}$  March, 2022 amounted to ₹ 2,00,000.

67/3/1

.

Page 9

CLICK

*P.T.O.* 

1

1





- 9. दिव्या की गारंटी की राशि निम्नलिखित राशि से कम है :
  - (a) ₹ 75,000
  - (b) ₹ 5,000
  - (c) ₹ 15,000
  - (d) ₹ 20,000
- 10. गारंटी की राशि का समायोजन करने के पश्चात् साझेदारों के बीच विभाजित की जाने वाली अंतिम लाभ की राशि होगी :
  - (a) अनु ₹ 50,000; चारु ₹ 25,000; दिव्या ₹ 75,000
  - (b) अनु ₹ 55,000; चारु ₹ 30,000; दिव्या ₹ 65,000
  - (c) अनु ₹ 57,000; चारु ₹ 28,000; दिव्या ₹ 65,000
  - (d) अनु ₹ 45,000; चारु ₹ 30,000; दिव्या ₹ 75,000
- विक्रम तथा सुमित एक फर्म में साझेदार थे तथा 2 : 1 के अनुपात में लाभ-हानि का विभाजन करते थे । सभी समायोजनों के पश्चात् विक्रम तथा सुमित की पूँजी क्रमश: ₹ 50,000 तथा ₹ 40,000 थीं । उन्होंने जयन्त को लाभों में <sup>1</sup>/<sub>3</sub> भाग के लिए फर्म में साझेदार के रूप में प्रवेश दिया । जयन्त फर्म में आनुपातिक पूँजी लाया । जयन्त द्वारा लाई गई पूँजी की राशि थी :
  - (a) ₹ 45,000
  - (b) ₹ 30,000
  - (c) ₹ 60,500
  - (d) ₹ 90,000
- 12. रिदम लिमिटेड ने श्याम लिमिटेड की ₹ 30,00,000 की परिसम्पत्तियाँ तथा ₹ 12,00,000
   की देयताएँ ₹ 23,00,000 के क्रय मूल्य के बदले लीं । क्रय मूल्य के शुद्ध परिसम्पत्तियों पर
   ₹ 5,00,000 के आधिक्य मूल्य की खतौनी होगी :
  - (a) ख्याति खाते के नाम पक्ष में
  - (b) पूँजी संचय खाते के जमा पक्ष में
  - (c) विक्रेता के खाते के जमा पक्ष में
  - (d) पूँजी संचय खाते के नाम पक्ष में

67/3/1

Page 10

Get More Learning Materials Here :





1

1



**9.** Divya's amount of guarantee is short by the following amount :

- (a) ₹ 75,000
- (b) ₹ 5,000
- (c) ₹ 15,000
- (d) ₹ 20,000
- **10.** The final amount of profit distributed among the partners after adjustment of guaranteed amount will be :
  - (a) Anu ₹ 50,000; Charu ₹ 25,000; Divya ₹ 75,000
  - (b) Anu ₹ 55,000; Charu ₹ 30,000; Divya ₹ 65,000
  - (c) Anu ₹ 57,000; Charu ₹ 28,000; Divya ₹ 65,000
  - (d) Anu ₹ 45,000; Charu ₹ 30,000; Divya ₹ 75,000
- 11. Vikram and Sumit were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2 : 1. The capitals of Vikram and Sumit after all adjustments were  $\gtrless$  50,000 and  $\gtrless$  40,000 respectively. They admitted Jayant as a partner for  $\frac{1}{3}$  share in the profits of the firm. Jayant brought proportionate capital in the firm. The amount of capital brought in by Jayant was :
  - (a) ₹ 45,000
  - (b) ₹ 30,000
  - (c) ₹ 60,500
  - (d) ₹ 90,000
- Rhythm Ltd. took over assets of ₹ 30,00,000 and liabilities of ₹ 12,00,000 of Shyam Ltd. for a purchase consideration of ₹ 23,00,000. Excess value of purchase consideration of ₹ 5,00,000 over net assets will be :
  - (a) Debited to Goodwill Account
  - (b) Credited to Capital Reserve Account
  - (c) Credited to Vendors' Account
  - (d) Debited to Capital Reserve Account
- 67/3/1 **~~~**

Page 11

*P.T.O.* 

1

1

1

1

Get More Learning Materials Here : 💻



- 13. ईशा तथा नमन एक फर्म के साझेदार थे तथा 2 : 3 के अनुपात में लाभ-हानि का विभाजन करते थे | 1 अप्रैल, 2022 से उन्होंने लाभ-हानि को बराबर-बराबर बाँटने पर सहमति की | लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण ईशा का अधिलाभ अथवा त्याग होगा :
  - (a) त्याग  $\frac{1}{10}$ (b) अधिलाभ  $\frac{1}{10}$
  - (c) त्याग  $\frac{2}{5}$ (d) अधिलाभ  $\frac{2}{5}$
- 14. एक साझेदारी फर्म की नियोजित पूँजी ₹ 6,00,000 है। इसका औसत लाभ ₹ 80,000 है। इसी प्रकार के व्यवसाय में प्रतिफल की सामान्य दर 10% है। अधिलाभ की राशि है:
  - (a)₹ 60,000(b)₹ 8,000(c)₹ 20,000(d)₹ 52,000
- 15. 1 अप्रैल, 2021 को नर्मदा लिमिटेड ने ₹ 100 प्रत्येक के 5,000, 8% ऋणपत्रों का निर्गमन 10% प्रीमियम पर किया | 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में ऋणपत्रों पर कुल ब्याज की राशि होगी :
  - (a) ₹ 25,000
  - (b) ₹ 20,000
  - (c) ₹ 50,000
  - (d) ₹ 40,000
- 16. सनबीम लिमिटेड ने ₹ 100 प्रत्येक के 4,000, 6% ऋणपत्रों का निर्गमन ₹ 95 प्रति ऋणपत्र
   पर किया । 6% ऋणपत्र खाते के जमा पक्ष में खतौनी की जाएगी :
  - (a) ₹ 3,80,000
  - (b) ₹ 4,40,000
  - (c) ₹ 4,00,000
  - (d) ₹ 20,000

67/3/1

Page 12

Get More Learning Materials Here : 📕



1

1

1

- 13. Isha and Naman were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2 : 3. With effect from 1<sup>st</sup> April, 2022 they agreed to share profits and losses equally. Due to change in the profit sharing ratio, Isha's gain or sacrifice will be :
  - (a) Sacrifice  $\frac{1}{10}$ (b) Gain  $\frac{1}{10}$ (c) Sacrifice  $\frac{2}{5}$
  - (d) Gain  $\frac{2}{5}$
- 14. A partnership firm has capital employed of ₹ 6,00,000. Its average profits are ₹ 80,000. The normal rate of return in similar type of business is 10%. The amount of super profits are :
  - (a) ₹ 60,000
    (b) ₹ 8,000
    (c) ₹ 20,000
    (d) ₹ 52,000
- 15. On 1<sup>st</sup> April, 2021, Narmada Ltd. issued 5,000, 8% Debentures of ₹ 100 each at a premium of 10%. The total amount of interest on debentures for the year ending 31<sup>st</sup> March, 2022 will be :
  - (a) ₹ 25,000
  - (b) ₹ 20,000
  - (c) ₹ 50,000
  - (d) ₹ 40,000
- 16. Sunbeam Limited issued 4,000, 6% Debentures of ₹ 100 each at ₹ 95 per debenture. 6% Debentures account will be credited by :
  - (a) ₹ 3,80,000
  - (b) ₹ 4,40,000
  - (c) ₹ 4,00,000
  - (d) ₹ 20,000

67/3/1

Page 13

*P.T.O.* 

1

1

1

1

Get More Learning Materials Here : **\_** 



- 17. कनक, कमल तथा कान्हा एक फर्म में साझेदार हैं । उनकी स्थायी पूँजी क्रमश: ₹ 5,00,000, ₹ 10,00,000 तथा ₹ 15,00,000 थीं । वे अपनी स्थायी पूँजी के अनुपात में लाभ बाँटते हैं । फर्म प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को अपनी पुस्तकें बंद करती है । 30 सितम्बर, 2021 को कनक की मृत्यु हो गई । लाभ में कनक के भाग की गणना पिछले स्थिति विवरण की तिथि से मृत्यु की तिथि तक विक्रय के आधार पर की जाएगी । वर्ष 2020 21 का विक्रय तथा लाभ क्रमश: ₹ 20,00,000 तथा ₹ 2,00,000 था । 1 अप्रैल, 2021 से 30 सितम्बर, 2021 तक विक्रय ₹ 6,00,000 था ।
  - (i) कनक के लाभ के भाग की गणना कीजिए।
  - (ii) लाभ में कनक के भाग के लेखांकन की आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टि कीजिए।
- 18. (क) एम लिमिटेड ने ₹ 100 प्रत्येक के 10,000, 8% ऋणपत्रों को 6% बट्टे पर निर्गमित किया । राशि का भुगतान निम्न प्रकार से देय था : ₹ 60 आवेदन पर तथा शेष आबंटन पर । सभी राशि विधिवत् प्राप्त हो गई । एम लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियाँ कीजिए ।

#### अथवा

- (ख) एक कम्पनी ने ₹ 10 प्रत्येक के पूर्णत: याचित 4,000 अंशों, जिन पर ₹ 3 प्रति अंश की आवेदन राशि का भुगतान किया गया था, का हरण कर लिया । इनमें से 2,000 अंशों को पूर्ण प्रदत्त ₹18,000 पर पुन:निर्गमित कर दिया गया । उपर्युक्त लेनदेनों के लिए आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियाँ कीजिए ।
- 19. (क) रमन, मनन तथा नमन साझेदार थे तथा 2 : 1 : 1 के अनुपात में लाभ बाँटते थे । रमन ने प्रति माह ₹ 3,000 तथा मनन ने प्रति माह ₹ 4,000 का आहरण किया । आहरण पर 6% वार्षिक दर से ब्याज लगाया गया जबकि साझेदारी संलेख आहरण पर ब्याज के विषय में मौन था । अपने कार्य को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए, त्रुटि को शुद्ध करने हेतु आवश्यक समायोजन प्रविष्टि कीजिए ।

अथवा

(ख) अरुन तथा बरुन साझेदार थे तथा 3 : 2 के अनुपात में लाभ बाँटते थे । उनकी पूँजी क्रमश: ₹ 50,000 तथा ₹ 30,000 थीं । साझेदारी संलेख में पूँजी पर 6% वार्षिक दर से अरुन तथा बरुन को ब्याज देने का तथा बरुन को ₹ 1,000 के त्रैमासिक वेतन देने का प्रावधान था । 1 अक्टूबर, 2021 को अरुन ने ब्याज के बारे में किसी समझौते के बिना फर्म को ₹ 1,00,000 का ऋण दिया । वर्ष 2021 – 22 में अर्जित लाभ ₹ 26,800 थे ।
31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए फर्म का लाभ-हानि विनियोजन खाता तैयार कीजिए ।

67/3/1

Page 14

3


3

3

3

 $\mathcal{3}$ 







- 17. Kanak, Kamal and Kanha are partners in a firm. Their fixed capitals were ₹ 5,00,000, ₹ 10,00,000 and ₹ 15,00,000 respectively. They share profits in the ratio of their fixed capitals. Firm closes its books of accounts on 31<sup>st</sup> March every year. Kanak died on 30<sup>th</sup> September, 2021. Kanak's share of profit till the date of death from the last Balance Sheet date, was to be calculated on the basis of sales. Sales and Profit for the year 2020 21 were ₹ 20,00,000 and ₹ 2,00,000 respectively. Sales from 1<sup>st</sup> April, 2021 to 30<sup>th</sup> September, 2021 were ₹ 6,00,000.
  - (i) Calculate Kanak's share of profit.
  - (ii) Pass necessary journal entry to record Kanak's share of profit.
- 18. (a) M Ltd. issued 10,000, 8% Debentures of ₹ 100 each at 6% discount. The amount was payable as ₹ 60 on application and the balance on allotment. All money was duly received. Pass necessary journal entries in the books of M Ltd.

## OR

- (b) A company forfeited 4,000 shares of ₹ 10 each fully called-up, on which application money of ₹ 3 each has been paid. Out of these, 2,000 shares were reissued as fully paid up for ₹18,000.
  Pass necessary journal entries for above transactions.
- 19. (a) Raman, Manan and Naman were partners sharing profit in the ratio of 2:1:1. Raman withdrew ₹ 3,000 every month and Manan withdrew ₹ 4,000 every month. Interest on drawings @ 6% p.a. was charged whereas the partnership deed was silent about interest on drawings.

Showing your working clearly, pass the necessary adjustment entry to rectify the error.

# OR

(b) Arun and Barun were partners sharing profits in the ratio of 3 : 2. Their capitals were ₹ 50,000 and ₹ 30,000 respectively. Partnership deed provided for interest on capital @ 6% p.a. to Arun and Barun and quarterly salary of ₹ 1,000 to Barun. Arun had given a loan of ₹ 1,00,000 on 1<sup>st</sup> October, 2021 to the firm without any agreement about interest. For the year 2021 – 22, the profits earned were ₹ 26,800.

Prepare Profit and Loss Appropriation Account of the firm for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2022.

**CLICK HERE** 

>>

67/3/1

3

3

3

3



- 20. वंशिका तथा शिखा एक फर्म के साझेदार थे तथा उनकी पूँजी क्रमश: ₹ 1,00,000 तथा ₹ 80,000 थीं | उन्होंने 1 अप्रैल, 2022 को भविष्य के लाभों में <sup>1</sup>/<sub>4</sub> भाग के लिए निशा को फर्म का एक नया साझेदार बनाया | निशा अपनी पूँजी के लिए ₹ 90,000 लाई | निशा ने अपने भाग का अधिग्रहण वंशिका तथा शिखा से बराबर-बराबर किया | फर्म की ख्याति की गणना कीजिए तथा यह मानते हुए कि निशा ख्याति प्रीमियम का अपना भाग नगद नहीं लाई, निशा के प्रवेश पर आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियाँ कीजिए | अपने कार्य को स्पष्ट रूप से दर्शाइए |
- 21. पवन लिमिटेड ₹ 10 प्रत्येक के 1,00,000 समता अंशों में विभक्त ₹ 10,00,000 की अधिकृत पूँजी के साथ पंजीकृत थी । कम्पनी ने जनता को अभिदान के लिए 80,000 समता अंश प्रस्तावित किए । राशि का भुगतान प्रति अंश निम्न प्रकार से करना था :

आवेदन पर – ₹ 3, आबंटन पर – ₹ 2, प्रथम याचना पर – ₹ 3 तथा दुसरी एवं अन्तिम याचना पर शेष

निर्गम पूर्ण रूप से अभिदत्त हो गया तथा छवि को आबंटित 2,000 अंशों पर प्रथम एवं अंतिम याचना को छोड़कर सभी राशि प्राप्त हो गई । उसके अंशों का हरण कर लिया गया । कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III, भाग I के अनुसार कम्पनी के स्थिति विवरण में अंश पूँजी दर्शाइए । इसी के लिए खातों के नोट्स भी तैयार कीजिए ।

22. रवि, कवि तथा चांद साझेदार थे तथा 5:3:2 के अनुपात में लाभ बाँटते थे। 31 मार्च, 2022 को उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार से था:

31 मार्च, 2022 को रवि, कवि तथा चांद का स्थिति विवरण

| देयताएँ        |          | राशि<br>₹ | परिसम्पत्तियाँ |          | राशि<br>₹ |
|----------------|----------|-----------|----------------|----------|-----------|
| विविध लेनदार   |          | 70,000    | भूमि तथा भव    | न        | 3,50,000  |
| चांद का ऋण     |          | 20,000    | स्टॉक          |          | 3,00,000  |
| श्रीमति चांद क | া ऋण     | 20,000    | देनदार         | 2,00,000 |           |
| पूँजी :        |          |           | घटा प्रावधान   | 10,000   | 1,90,000  |
| रवि            | 4,00,000 |           | रोकड़          |          | 70,000    |
| कवि            | 3,00,000 |           |                |          |           |
| चांद           | 1,00,000 | 8,00,000  |                |          |           |
|                |          | 9,10,000  |                |          | 9,10,000  |

67/3/1

- -

Get More Learning Materials Here :

Page 16

CLICK HERE

≫



4



- 20. Vanshika and Shikha were partners in a firm with capitals of ₹ 1,00,000 and ₹ 80,000 respectively. They admitted Nisha on 1<sup>st</sup> April, 2022 as a new partner for <sup>1</sup>/<sub>4</sub> share in the future profits of the firm. Nisha brought ₹ 90,000 as her capital. Nisha aquired her share equally from Vanshika and Shikha. Calculate the value of goodwill of the firm and pass necessary journal entries on Nisha's admission, assuming that Nisha did not bring her share of goodwill premium in cash. Show the working clearly.
- **21.** Pawan Ltd. was registered with an authorised capital of  $\gtrless$  10,00,000 divided into 1,00,000 equity shares of  $\gtrless$  10 each. The company offered to the public for subscription, 80,000 equity shares. The amount per share was payable as follows :

| On application | — | ₹3,     |
|----------------|---|---------|
| On allotment   | _ | ₹2      |
| On first call  | — | ₹ 3 and |

On second and final call the balance

The issue was fully subscribed and all amounts due were received except the first and final call money on 2,000 shares allotted to Chavi. Her shares were forfeited.

Present the Share Capital in the Balance Sheet of the company as per Schedule III, Part I of the Companies Act, 2013. Also prepare Notes to Accounts for the same.

**22.** Ravi, Kavi and Chand were partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. On  $31^{st}$  March, 2022, their Balance Sheet was as follows :

| Liabilities  |          | Amount<br>₹ | Assets                | Amount<br>₹ |
|--------------|----------|-------------|-----------------------|-------------|
| Sundry Credi | itors    | 70,000      | Land and Building     | 3,50,000    |
| Chand's Loar | ı        | 20,000      | Stock                 | 3,00,000    |
| Mrs. Chand's | Loan     | 20,000      | Debtors 2,00,000      |             |
| Capitals :   |          |             | Less provision 10,000 | 1,90,000    |
| Ravi         | 4,00,000 |             | Cash                  | 70,000      |
| Kavi         | 3,00,000 |             |                       |             |
| Chand        | 1,00,000 | 8,00,000    |                       |             |
|              |          | 9,10,000    |                       | 9,10,000    |

# Balance Sheet of Ravi, Kavi and Chand as on 31<sup>st</sup> March, 2022





**CLICK HERE** 

3



उपर्युक्त तिथि को फर्म का विघटन हो गया।

- भूमि तथा भवन एवं स्टॉक को ₹ 6,00,000 में बेच दिया गया । देनदारों से पुस्तक मूल्य से 10% कम की वसूली हुई ।
- (ii) श्रीमति चांद के ऋण का निपटान उन्हें ₹ 22,000 का एक कम्प्यूटर देकर किया गया जिसका लेखा पुस्तकों में नहीं था ।
- (iii) रवि ने ₹ 30,000 की राशि के एक लेनदार का निपटान उसे ₹ 20,000 का भुगतान करके किया ।
- (iv) शेष लेनदारों को नकद भुगतान कर दिया गया।
- वसूली खाता तैयार कीजिए ।
- 23. (क) लोट्स लिमिटेड ने ₹ 10 प्रत्येक के 80,000 समता अंशों को ₹ 4 प्रति अंश के प्रीमियम पर निर्गमित करने के लिए आवेदन आमन्त्रित किए । राशि का भुगतान निम्न प्रकार से देय था :

आवेदन पर – ₹ 5 प्रति अंश

आबंटन पर – ₹ 9 प्रति अंश (प्रीमियम सहित)

1,40,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए तथा सभी आवेदकों को आनुपातिक आधार पर आबंटन कर दिया गया । आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि का समायोजन आबंटन पर देय राशि में कर लिया गया । राजीव, जिसने 1,400 अंशों के लिए आवेदन किया था, आबंटन राशि का भुगतान करने में असफल रहा । उसके अंशों का हरण कर लिया गया । बाद में, इन हरण किए गए अंशों को ₹ 9 प्रति अंश पूर्ण प्रदत्त पुन:निर्गमित कर दिया गया ।

उपर्युक्त लेनदेनों के लिए लोट्स लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

अथवा


(ख) ट्यूलिप लिमिटेड ने ₹ 10 प्रत्येक के 2,40,000 समता अंशों को ₹ 4 प्रति अंश के प्रीमियम पर निर्गमित करने के लिए आवेदन आमन्त्रित किए । राशि का भुगतान निम्न प्रकार से देय था :

आवेदन पर – ₹ 4 प्रति अंश (₹ 2 प्रीमियम सहित) आबंटन पर – ₹ 4 प्रति अंश

प्रथम एवं अंतिम याचना पर – ₹ 6 प्रति अंश (₹ 2 प्रीमियम सहित) 3,00,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए तथा सभी आवेदकों को आनुपातिक आधार पर अंशों का आबंटन कर दिया गया । आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त आवेदन राशि का समायोजन आबंटन पर देय राशि में कर लिया गया । सभी राशि विधिवत् प्राप्त हो गई, रोहिनी को छोड़कर जिसने 7,500 अंशों के लिए आवेदन किया था तथा जो आबंटन तथा प्रथम एवं अंतिम याचना का भुगतान करने में असफल रही । उपर्युक्त लेनदेनों के लिए ट्यूलिप लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियाँ कीजिए । जहाँ आवश्यक हो, अदत्त याचना खाता तथा अग्रिम याचना खाता खोलिए ।

67/3/1

Get More Learning Materials Here : 💵 👉 🔼 🔛 🕀



4

6

The firm was dissolved on the above date.

- (i) Land and Building and Stock were sold for  $\gtrless$  6,00,000. Debtors were realised at 10% less than the book value.
- Mrs. Chand's loan was settled by giving her a computer of ₹ 22,000 not recorded in the books.
- (iii) Ravi paid off one of the creditors  $\gtrless$  20,000 in settlement of his amount of  $\gtrless$  30,000.
- (iv) Remaining creditors were paid in cash.

Prepare Realisation Account.

23. (a) Lotus Ltd. invited applications for issuing 80,000 equity shares of ₹ 10 each at a premium of ₹ 4 per share. The amount was payable as follows :

On application  $- \notin 5$  per share and

On allotment  $- \neq 9$  per share (included premium).

Applications were received for 1,40,000 shares and allotment was made to all applicants on pro-rata basis. Money overpaid on applications was adjusted towards sums due on allotment. Rajiv, who had applied for 1,400 shares, failed to pay the allotment money. His shares were forfeited. Later on, these forfeited shares were reissued at ₹ 9 per share as fully paid up.

Pass necessary journal entries for the above transactions in the books of Lotus Ltd.

# OR

(b) Tulip Ltd. invited applications for issuing 2,40,000 equity shares of
 ₹ 10 each at a premium of ₹ 4 per share. The amount was payable as under :

On application –  $\gtrless$  4 per share (including premium  $\gtrless$  2)

On allotment  $- \neq 4$  per share

On first and final call  $- \notin 6$  per share (including premium  $\notin 2$ ) Applications for 3,00,000 shares were received and pro-rata allotment was made to all the applicants. Excess application money received with applications was adjusted towards sums due on allotment. All moneys were duly received except from Rohini who had applied for 7,500 shares, and failed to pay allotment and first and final call.

Pass the necessary journal entries for the above transactions in the books of Tulip Ltd. Open Calls-in-arrears and Calls-in-advance account, wherever necessary.

67/3/1

Page 19

6

4





24.

(क) क तथा ख साझेदार, जो 3:2 के अनुपात में लाभ बाँटते थे, का 31 मार्च, 2022
 को स्थिति विवरण निम्न प्रकार से था :

| देयताएँ    |             | राशि<br>₹ | परिसम्पत्तियाँ |        | राशि<br>₹ |
|------------|-------------|-----------|----------------|--------|-----------|
| लेनदार     |             | 30,000    | बैंक में रोकड़ |        | 20,000    |
| निवेश उता  | र-चढ़ाव कोष | 12,000    | देनदार         | 85,000 |           |
| सामान्य सं | चय          | 25,000    | घटा प्रावधान   | 5,000  | 80,000    |
| पूँजी :    |             |           | स्टॉक          |        | 1,30,000  |
| क          | 1,60,000    |           | निवेश          |        | 60,000    |
| ख          | 1,40,000    | 3,00,000  | फर्नीचर        |        | 77,000    |
|            |             | 3,67,000  |                |        | 3,67,000  |

31 मार्च, 2022 को क तथा ख का स्थिति विवरण

1 अप्रैल, 2022 को उन्होंने लाभ में  $\frac{1}{5}$  भाग के लिए ग को निम्नलिखित शर्तों पर एक नया साझेदार बनाने का निर्णय किया :

- ग अपनी पूँजी के लिए ₹ 1,00,000 तथा ख्याति के अपने भाग के लिए
   ₹ 50,000 ख्याति प्रीमियम लाएगा ।
- (ii) ₹ 2,000 का एक महीने का वेतन अदत्त था।
- (iii) निवेश का बाज़ार मूल्य ₹ 50,000 था।
- (iv) एक देनदार, जिसकी देनदारी को डूबत ऋण के रूप में अपलिखित कर दिया
   गया था, ने पूर्ण निपटान में ₹ 12,000 का भुगतान किया ।

पुनर्मूल्यांकन खाता तथा साझेदारों के पूँजी खाते तैयार कीजिए ।


अथवा

67/3/1

Page 20









- 24.
- (a) On 31<sup>st</sup> March, 2022 the Balance Sheet of partners A and B, who were sharing profits in the ratio of 3 : 2 was as follows :

| Liabilities                    | Amount<br>₹ | Assets                         | Amount<br>₹ |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| Creditors                      | 30,000      | Cash at Bank                   | 20,000      |
| Investment<br>Fluctuation Fund | 12,000      | Debtors 85,000                 |             |
| General Reserve                | 25,000      | Less<br>provision <u>5,000</u> | 80,000      |
| Capitals :                     |             | Stock                          | 1,30,000    |
| A 1,60,000                     | )           | Investments                    | 60,000      |
| B <u>1,40,000</u>              | 3,00,000    | Furniture                      | 77,000      |
|                                | 3,67,000    |                                | 3,67,000    |

Balance Sheet of A and B as at 31<sup>st</sup> March, 2022

On 1<sup>st</sup> April 2022, they decided to admit C as a new partner for  $\frac{1}{5}$  share in the profits on the following terms :

- (i) C brought ₹ 1,00,000 as his Capital and ₹ 50,000 as his share of Premium for Goodwill.
- (ii) One month salary  $\gtrless$  2,000 was outstanding.
- (iii) The market value of investments was  $\gtrless$  50,000.
- (iv) A debtor, whose dues were written off as bad debts, paid
   ₹ 12,000 in full settlement.

Prepare Revaluation Account and Partners' Capital Accounts.

#### OR

Get More Learning Materials Here :

67/3/1

**CLICK HERE** 

≫

P.T.O.

(ख) अनिता, गीता तथा सीता एक फर्म में साझेदार थे तथा 2 : 2 : 1 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे | 31 मार्च, 2022 को उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार से था :

| देयताएँ      |                      | राशि<br>₹ | परिसम्पत्तियाँ                | राशि<br><del>₹</del> |
|--------------|----------------------|-----------|-------------------------------|----------------------|
| पूँजी :      |                      |           | भूमि तथा भवन                  | 4,80,000             |
| अनिता        | 2,00,000             |           | निवेश                         | 1,20,000             |
| गीता<br>सीता | 2,00,000<br>1,00,000 | 5,00,000  | देनदार 1,50,000               |                      |
| सामान्य संचय |                      | 30,000    | घटा<br>प्रावधान <u>10,000</u> | 1,40,000             |
| लेनदार       |                      | 5,00,000  | स्टॉक                         | 1,20,000             |
|              |                      |           | बैंक में रोकड़                | 1,70,000             |
|              |                      | 10,30,000 |                               | 10,30,000            |

31 मार्च, 2022 को अनिता, गीता तथा सीता का स्थिति विवरण

उपर्युक्त तिथि को, अनिता फर्म से सेवानिवृत्त हो गई तथा शेष साझेदारों ने व्यवसाय जारी रखने का निर्णय लिया । परिसम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन तथा देयताओं के पुनर्निर्धारण पर निम्न सहमति हुई :

- (i) फर्म की ख्याति का मूल्यांकन ₹ 3,00,000 किया गया।
- (ii) भूमि तथा भवन को ₹ 1,23,000 बढ़ाया जाएगा।
- (iii) डूबत ऋण ₹ 20,000 थे । देनदारों पर संदिग्ध ऋणों के लिए 10% का प्रावधान करना था ।
- (iv) अनिता को चैक द्वारा ₹ 80,000 का तुरन्त भुगतान कर दिया गया । शेष राशि का हस्तान्तरण उसके ऋण खाते में कर दिया गया जिसका भुगतान दो बराबर वार्षिक किश्तों में 10% वार्षिक दर से ब्याज सहित किया जाएगा ।

अनिता के सेवानिवृत्त होने पर पुनर्मूल्यांकन खाता तथा साझेदारों के पूँजी खाते तैयार कीजिए।

≫

67/3/1

Get More Learning Materials Here :



(b) Anita, Geeta and Sita were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2 : 2 : 1. Their Balance Sheet as at 31<sup>st</sup> March, 2022 was as follow :

Balance Sheet of Anita, Geeta and Sita as at 31<sup>st</sup> March, 2022

| Liabilities                                                            | Amount<br>₹                    | Assets                                                       | Amount<br>₹           |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Capitals :                                                             |                                | Land and Building                                            | 4,80,000              |
| Anita 2,00,000                                                         |                                | Investments                                                  | 1,20,000              |
| Geeta 2,00,000<br>Sita <u>1,00,000</u><br>General Reserve<br>Creditors | 5,00,000<br>30,000<br>5,00,000 | Debtors 1,50,000<br>Less<br>Provision <u>10,000</u><br>Stock | 1,40,000 $1,20,000$   |
| Creditors                                                              | 10,30,000                      | Cash at Bank                                                 | 1,70,000<br>10,30,000 |

On the above date, Anita retired from the firm and the remaining partners decided to carry on the business. It was agreed to revalue the assets and reassess the liabilities as follows :

- (i) Goodwill of the firm was valued at ₹ 3.00.000.
- (ii) Land and Building was to be appreciated by  $\gtrless$  1,23,000.
- (iii) Bad debts amounted to ₹ 20,000. A provision for doubtful debts was to be maintained at 10% on debtors.
- (iv)Anita was paid ₹ 80,000 immediately by cheque. The balance amount was transferred to her loan account which was to be paid in two equal annual instalments along with interest @ 10% p.a.

Prepare Revaluation Account and Partners' Capital Accounts on Anita's retirement.

**CLICK HERE** 

>>>

67/3/1

Page 23



25.

. तृषा, अनिशा तथा ऋषिका एक फर्म में साझेदार थे तथा 2 : 2 : 1 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे । 31 मार्च, 2022 को उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार से था :

| देयताएँ        |                      | राशि<br>₹ | परिसम्पत्तियाँ     | राशि<br>₹ |
|----------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|
| पूँजी :        |                      |           | संयंत्र एवं मशीनरी | 5,00,000  |
| तृषा           | 3,00,000             |           | स्टॉक              | 1,00,000  |
| अनिशा<br>ऋषिका | 2,00,000<br>1,00,000 | 6,00,000  | देनदार             | 60,000    |
| सामान्य संचय   |                      | 50,000    | बैंक में रोकड़     | 40,000    |
| लेनदार         |                      | 50,000    |                    |           |
|                |                      | 7,00,000  |                    | 7,00,000  |

31 मार्च, 2022 को तृषा, अनिशा तथा ऋषिका का स्थिति विवरण

31 जुलाई, 2022 को तृषा की मृत्यु हो गई । साझेदारी संलेख के अनुसार मृतक साझेदार के निष्पादक निम्न के हकदार थे :

- (i) साझेदार के पूँजी खाते में शेष ।
- (ii) ₹ 15,000 त्रैमासिक वेतन ।
- (iii) ख्याति में भाग जिसकी गणना पिछले तीन वर्षों के औसत लाभों के दो गुणा के आधार पर की जाएगी ।
- (iv) पिछले लेखांकन वर्ष की समाप्ति से मृत्यु की तिथि तक लाभों में भाग जिसकी गणना पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर की जाएगी । 2019 – 20, 2020 – 21 तथा 2021 – 22 के लाभ क्रमश: ₹ 1,00,000, ₹ 2,00,000 तथा ₹ 1,50,000 थे ।
- (v) तृषा ने 1 मई, 2022 को अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए ₹ 20,000 का आहरण किया ।

अपने कार्य को स्पष्टता से दर्शाते हुए उसके निष्पादकों को प्रस्तुत करने हेतु तृषा का पूँजी खाता तैयार कीजिए।

67/3/1

Page 24

**CLICK HERE** 

>>

Get More Learning Materials Here : 💻





25. Trisha, Anisha and Rishika were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2 : 2 : 1. Their Balance Sheet as at 31<sup>st</sup> March, 2022 was as follows :

Balance Sheet of Trisha, Anisha and Rishika as at 31<sup>st</sup> March, 2022

| Liabilities       |                      | Amount<br>₹ | Assets              | Amount<br>₹ |
|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Capitals :        |                      |             | Plant and Machinery | 5,00,000    |
| Trisha            | 3,00,000             |             | Stock               | 1,00,000    |
| Anisha<br>Rishika | 2,00,000<br>1,00,000 | 6,00,000    | Debtors             | 60,000      |
| General Rese      | erve                 | 50,000      | Cash at Bank        | 40,000      |
| Creditors         |                      | 50,000      |                     |             |
|                   |                      | 7,00,000    |                     | 7,00,000    |

Trisha died on  $31^{st}$  July, 2022. According to the partnership deed, the executors of the deceased partner were entitled to :

- (i) Balance in partner's capital account.
- (ii) Salary  $@ \neq 15,000$  per quarter.
- Share of goodwill calculated on the basis of twice the average of past three year's profits.
- (iv) Share of profits from the closure of the last accounting year till the date of death on the basis of last year's profit. Profit for 2019 20, 2020 21 and 2021 22 were ₹ 1,00,000, ₹ 2,00,000 and ₹ 1,50,000 respectively.

(v) Trisha withdrew  $\gtrless$  20,000 on 1<sup>st</sup> May, 2022 for her personal use. Showing your working clearly, prepare Trisha's Capital Account to be rendered to her executors.


67/3/1

Page 25

**CLICK HERE** 

≫

*P.T.O.* 





- 26. (क) 1 अक्टूबर, 2021 को पीहू लिमिटेड ने ₹ 20 प्रत्येक के ₹ 15,00,000, 9% ऋणपत्रों को ₹ 6 प्रति ऋणपत्र के बट्टे पर निर्गमित किया । इसी तिथि को कम्पनी के 'प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाते' में ₹ 1,00,000 शेष था । 31 मार्च, 2022 को कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार ऋणपत्रों के निर्गमन पर बट्टे को अपलिखित करने का निर्णय लिया । ऋणपत्रों के निर्गमन तथा ऋणपत्रों के निर्गमन पर बट्टे को अपलिखित करने के लिए आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए ।
  - (ख) 1 अप्रैल, 2021 को सोमा लिमिटेड ने मोना लिमिटेड से भूमि का क्रय किया । सोमा लिमिटेड ने मोना लिमिटेड के पक्ष में ₹ 10,00,000 का एक चैक निर्गमित किया तथा 6 माह के पश्चात् देय ₹ 5,00,000 का एक विनिमय-पत्र स्वीकृत किया । शेष राशि का भुगतान ₹ 100 प्रत्येक के 5,000, 10% ऋणपत्रों के निर्गमन द्वारा किया गया ।

उपर्युक्त लेनदेनों के लिए सोमा लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियाँ कीजिए। 3+3=6

#### भाग ख

# विकल्प - I

# (वित्तीय विवरणों का विश्लेषण)

- 27. (i) निम्नलिखित में से कौन-सा 'लाभप्रदता अनुपात' नहीं है :
  - (a) सकल लाभ अनुपात
  - (b) निवेश पर प्रत्याय
  - (c) स्वामित्व अनुपात
  - (d) प्रचालन अनुपात

अथवा

- (ii) निम्नलिखित में से कौन-सा 'वित्तीय विवरणों का विश्लेषण' का एक साधन है :
  - (a) रोकड़ प्रवाह विवरण
  - (b) लाभ-हानि विवरण
  - (c) स्थिति विवरण
  - (d) (a) तथा (b) दोनों

67/3/1

Page 26

Get More Learning Materials Here : 💻





1



26. (a) On 1<sup>st</sup> October, 2021 Pihu Ltd. issued ₹ 15,00,000, 9% Debentures of ₹ 20 each at a discount of ₹ 6 per debenture. The company had a balance of ₹ 1,00,000 in 'Securities Premium Reserve Account' on the same date. On 31<sup>st</sup> March, 2022 the company decided to write off discount on issue of debentures according to the provisions of Companies Act, 2013. Pass necessary journal entries for issue of debentures and writing

off discount on issue of debentures.

(b) On 1 <sup>st</sup> April, 2021, Soma Ltd. purchased land from Mona Ltd. Soma Ltd. issued a cheque of ₹ 10,00,000 and accepted a bill of exchange payable after 6 months for ₹ 5,00,000 in favour of Mona Ltd. The balance amount was paid by issuing 5,000, 10% Debentures of ₹ 100 each at par.

Pass the necessary journal entries in the books of Soma Ltd. for the above transactions. 3+3=6

# PART B

# **OPTION – I**

# (Analysis of Financial Statements)

- **27.** (i) Which of the following is *not* a 'Profitability Ratio' :
  - (a) Gross Profit Ratio
  - (b) Return on Investment
  - (c) Proprietary Ratio
  - (d) Operating Ratio

#### OR

- (ii) Which of the following is a tool of 'Analysis of Financial Statements':
  - (a) Cash Flow Statement
  - (b) Statement of Profit and Loss
  - (c) Balance Sheet
  - (d) Both (a) and (b)

67/3/1

Page 27

*P.T.O.* 

1



 (i) एक कम्पनी का ऋण-समता अनुपात 2 : 1 है । निम्नलिखित में से कौन-सा लेनदेन ऋण-समता अनुपात को बढ़ाएगा ?

- (a) ₹ 1,00,000 के अंशों का निर्गमन
- (b) ₹ 4,00,000, 9% ऋणपत्रों का निर्गमन
- (c) ₹ 3,00,000 के बोनस अंशों का निर्गमन
- (d) ₹ 50,000 के लेनदारों का भुगतान

#### अथवा

- (ii) 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष में श्रद्धा लिमिटेड ने ब्याज एवं कर से पूर्व ₹ 15,00,000 का शुद्ध लाभ अर्जित किया । कम्पनी का ₹ 50,00,000 का एक 10% दीर्घकालीन ऋण था । कर दर 40% है । कम्पनी का ब्याज आवरण अनुपात होगा :
  - (a) 2 गुना
  - (b) 3 गुना
  - (c) 1·2 गुना
  - (d) 1.5 गुना

29. निम्नलिखित में से कौन-से लेनदेनों का परिणाम रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य का अन्तर्वाह होगा : 1

- (a) ₹ 80,000 की लागत का फर्नीचर ₹ 75,000 में बेचा गया
- (b) ₹ 5,00,000 के बोनस अंशों का निर्गमन
- (c) ₹ 15,000 के व्यापारिक देय का भुगतान
- (d) स्थायी परिसम्पत्तियों पर ₹ 11,000 का मूल्यहास प्रदान किया गया

**30.** निम्नलिखित में से कौन-सा लेनदेन निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह से संबंधित नहीं है : 1

- (a) ₹ 25,000 की विपणन-योग्य प्रतिभूतियों का क्रय
- (b) ₹ 2,80,000 की भूमि का विक्रय
- (c) ₹ 3,00,000 के विनियोगों का विक्रय
- (d) ₹ 1,00,000 के संयंत्र का क्रय

67/3/1

Page 28

Get More Learning Materials Here : 💻





1



**28.** (i) The Debt-Equity Ratio of a company is 2 : 1. Which of the following transactions will increase the Debt-Equity Ratio ?

- (a) Issue of shares  $\gtrless$  1,00,000
- (b) Issue of 9% debentures  $\gtrless$  4,00,000
- (c) Issue of bonus shares  $\gtrless$  3,00,000
- (d) Payment of creditors  $\neq$  50,000

#### OR

- (ii) During the year ended 31<sup>st</sup> March, 2022, Shradha Ltd. earned net profit of ₹ 15,00,000 before interest and tax. The company has a 10% long term debt of ₹ 50,00,000. The tax rate is 40%. The Interest Coverage Ratio of the company will be :
  - (a) 2 times
  - (b) 3 times
  - (c) 1.2 times
  - (d) 1.5 times
- **29.** Which of the following transactions would result in inflow of cash and cash equivalents :
  - (a) Furniture costing  $\gtrless$  80,000 sold for  $\gtrless$  75,000
  - (b) Issue of bonus shares  $\gtrless$  5,00,000
  - (c) Payment to trade payables ₹ 15,000
  - (d) Provided depreciation on fixed assets  $\gtrless$  11,000
- **30.** Which of the following transactions is *not* related to cash flows from investing activities :
  - (a) Purchase of marketable securities ₹ 25,000
  - (b) Sale of land  $\gtrless$  2,80,000

Get More Learning Materials Here :

- (c) Sale of investments  $\gtrless$  3,00,000
- (d) Purchase of equipment ₹ 1,00,000
- 67/3/1

Page 29

*P.T.O.* 

1

1

1

1

CLICK HERE 📎 🕀 www.studentbro.in



- 31. कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III, भाग I के अनुसार कम्पनी की निम्नलिखित मदों को स्थिति विवरण के मुख्य शीर्षकों तथा उपशीर्षकों (यदि कोई है) के अन्तर्गत वर्गीकृत कीजिए :
  - (i) खनन अधिकार
  - (ii) अग्रिम प्राप्त आय
  - (iii) पूँजीगत कार्य प्रगति पर
- 32. ऐसे किन्हीं दो अनुपातों को पहचानिए एवं उनके महत्त्व का उल्लेख कीजिए जिनकी गणना संसाधनों के प्रभावपूर्ण उपयोग पर आधारित व्यवसाय के प्रचालनों की प्रभाविकता को मापने के लिए की जाती है।
- 33. (क) निम्नलिखित सूचना से सकल लाभ अनुपात की गणना कीजिए :
   औसत इन्वेन्टरी (स्टॉक) ₹ 1,60,000; इन्वेन्टरी आवर्त अनुपात 8 गुना; औसत
   व्यापारिक प्राप्य ₹ 2,00,000; व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात 6 गुना तथा नगद
   विक्रय कुल विक्रय का 25% ।

#### अथवा

(ख) निम्नलिखित सूचना से कार्यशील पूँजी आवर्त अनुपात की गणना कीजिए :

Page 30


विनियोजित पूँजी ₹ 1,00,000 अचल परिसम्पत्तियाँ ₹ 80,000 प्रचालनों से आगम लागत ₹ 3,20,000

सकल लाभ अनुपात 20%

67/3/1

Get More Learning Materials Here : 💻





 $\boldsymbol{3}$ 

 $\mathcal{B}$ 

4

- **31.** Classify the following items under major heads and sub-heads (if any) in the Balance Sheet of a company as per Schedule III, Part I of the Companies Act, 2013.
  - (i) Mining Rights
  - (ii) Income received in advance
  - (iii) Capital work in progress
- **32.** Identify and state the significance of any two ratios that are calculated to measure the efficiency of operations of business based on effective utilisation of resources.
- 33. (a) Calculate Gross Profit Ratio from the following information : Average Inventory ₹ 1,60,000; Inventory Turnover Ratio 8 times, Average Trade Receivables ₹ 2,00,000; Trade Receivables Turnover Ratio 6 times and Cash Sales 25% of Total Sales.

#### OR

- (b) From the following information, calculate Working Capital Turnover Ratio :
  - Capital Employed ₹ 1,00,000
  - Non-Current Assets ₹ 80,000
  - Cost of Revenue from Operations ₹ 3,20,000

Gross Profit Ratio 20%

67/3/1

Get More Learning Materials Here :

Page 31

**CLICK HERE** 

>>

3

3

4

34. निम्न काल्पनिक कथन को पढ़िए तथा इसके आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए : 'मेक-इन-इंडिया' मिशन से प्रेरित होकर आज़ाद ने 'आज़ाद लिमिटेड' कम्पनी के रूप में 2016 में छ: अन्य प्रवर्तकों के साथ अपना एक नया व्यवसाय आरम्भ किया । कम्पनी लगातार अच्छा आगम अर्जित कर रही है । 31 मार्च, 2022 को आज़ाद लिमिटेड की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :


| विवरण  |                            | नोट<br>सं. | 31.3.2022<br>₹ | 31.3.2021<br>₹ |
|--------|----------------------------|------------|----------------|----------------|
| I – सग | नता तथा देयताएँ :          |            |                |                |
| 1.     | अंशधारक निधियाँ            |            |                |                |
|        | (क) अंश पूँजी              |            | 19,00,000      | 17,00,000      |
|        | (ख) संचय एवं आधिक्य        | 1          | 6,00,000       | 3,00,000       |
| 2.     | अचल देयताएँ                |            |                |                |
|        | दीर्घकालीन उधार            | 2          | 5,00,000       | 4,00,000       |
| 3.     | चालू देयताएँ               |            |                |                |
|        | (क) लघुकालीन उधार          | 3          | 1,70,000       | 1,75,000       |
|        | (ख) लघुकालीन प्रावधान      | 4          | 2,00,000       | 1,65,000       |
|        | कुल                        |            | 33,70,000      | 27,40,000      |
| II – प | रिसम्पत्तियाँ :            |            |                |                |
| 1.     | अचल परिसम्पत्तियाँ         |            |                |                |
|        | (क) स्थायी परिसम्पत्तियाँ  |            |                |                |
|        | (i) मूर्त परिसम्पत्तियाँ   | 5          | 24,00,000      | 19,00,000      |
|        | (ii) अमूर्त परिसम्पत्तियाँ | 6          | 4,00,000       | 3,00,000       |
|        | (ख) अचल निवेश              |            | 1,00,000       | 2,00,000       |
| 2.     | चालू परिसम्पत्तियाँ        |            |                |                |
|        | (क) चालू निवेश             |            | 1,40,000       | 1,70,000       |
|        | (ख) स्टॉक (मालसूची)        |            | 2,60,000       | 1,30,000       |
|        | (ग) रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य  |            | 70,000         | 40,000         |
|        | कुल                        |            | 33,70,000      | 27,40,000      |

67/3/1

Page 32

Get More Learning Materials Here : 💻

CLICK HERE



34.

• Read the following hypothetical text and answer the given question on this basis :

Azad, inspired by 'Make-in-India' mission, initiated his start-up in the form of a company 'Azad Ltd.' along with six other promoters in 2016. The company has been earning good revenue consistently. The financial position of Azad Ltd. as at  $31^{st}$  March, 2022 was as follows :

| Particulars                  |   | 31.3.2022<br>₹ | 31.3.2021<br>₹ |
|------------------------------|---|----------------|----------------|
| I – Equity and Liabilities : |   |                |                |
| 1. Shareholders' Funds       |   |                |                |
| (a) Share Capital            |   | 19,00,000      | 17,00,000      |
| (b) Reserves and Surplus     | 1 | 6,00,000       | 3,00,000       |
| 2. Non-Current Liabilities   |   |                |                |
| Long-term Borrowings         | 2 | 5,00,000       | 4,00,000       |
| 3. Current Liabilities       |   |                |                |
| (a) Short-term Borrowings    | 3 | 1,70,000       | 1,75,000       |
| (b) Short-term Provisions    | 4 | 2,00,000       | 1,65,000       |
| Total                        |   | 33,70,000      | 27,40,000      |
| II – Assets :                |   |                |                |
| 1. Non-Current Assets        |   |                |                |
| (a) Fixed Assets             |   |                |                |
| (i) Tangible Assets          | 5 | 24,00,000      | 19,00,000      |
| (ii) Intangible Assets       | 6 | 4,00,000       | 3,00,000       |
| (b) Non-current Investments  |   | 1,00,000       | 2,00,000       |
| 2. Current Assets            |   |                |                |
| (a) Current Investments      |   | 1,40,000       | 1,70,000       |
| (b) Inventories              |   | 2,60,000       | 1,30,000       |
| (c) Cash and Cash            |   | <b>FO 000</b>  | 40.000         |
| Equivalents                  |   | 70,000         | 40,000         |
| Total                        |   | 33,70,000      | 27,40,000      |

Balance Sheet of Azad Ltd. as at 31<sup>st</sup> March, 2022

67/3/1

*P.T.O.* 

| STA   |
|-------|
| E FAS |

खातों के नोट्स :

| नोट<br>सं.   |                                 | 31.3.2022<br>₹ | 31.3.2021<br>₹ |
|--------------|---------------------------------|----------------|----------------|
|              |                                 |                | •              |
| (1)          | संचय एवं आधिक्य (आधिक्य अर्थात् | 6,00,000       | 3,00,000       |
|              | लाभ-हानि विवरण का शेष)          |                |                |
| ( <b>0</b> ) |                                 |                |                |
| (2)          | दीर्घकालीन उधार                 |                |                |
|              | 12% ऋणपत्र                      | 5,00,000       | 4,00,000       |
| (3)          | लघुकालीन उधार                   |                |                |
|              | बैंक अधिविकर्ष                  | 1,70,000       | 1,75,000       |
| (4)          | लघुकालीन प्रावधान               |                |                |
|              | कर प्रावधान                     | 2,00,000       | 1,65,000       |
| (5)          | मूर्त परिसम्पत्तियाँ            |                |                |
|              | मशीनरी                          | 26,00,000      | 20,00,000      |
|              | घटा एकत्रित मूल्यह्रास          | (2,00,000)     | (1,00,000)     |
|              |                                 | 24,00,000      | 19,00,000      |
| (6)          | अमूर्त परिसम्पत्तियाँ           |                |                |
|              | ख्याति                          | 4,00,000       | 3,00,000       |

अतिरिक्त सूचना :

- (i) ₹ 1,00,000, 12% ऋणपत्रों का निर्गमन 1 अप्रैल, 2021 को किया गया।
- (ii) ₹ 80,000 लागत की एक मशीनरी को, जिस पर एकत्रित मूल्यहास ₹ 40,000 था,
   ₹ 10,000 के अधिलाभ पर बेचा गया ।

'निवेश गतिविधियों' तथा 'वित्तीय गतिविधियों' से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए।

6

67/3/1

Page 34

Get More Learning Materials Here : 💻





Notes to Accounts :

| Note<br>No. |                                                           | 31.3.2022<br>₹ | 31.3.2021<br>₹ |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| (1)         | Reserves and Surplus                                      | 6,00,000       | 3,00,000       |
|             | (Surplus i.e. Balance in Statement<br>of Profit and Loss) |                |                |
| (2)         | Long-term Borrowings                                      |                |                |
|             | 12% Debentures                                            | 5,00,000       | 4,00,000       |
| (3)         | Short-term Borrowings                                     |                |                |
|             | Bank Overdraft                                            | 1,70,000       | 1,75,000       |
| (4)         | Short-term Provisions                                     |                |                |
|             | Provision for Tax                                         | 2,00,000       | 1,65,000       |
| (5)         | Tangible Assets                                           |                |                |
|             | Machinery                                                 | 26,00,000      | 20,00,000      |
|             | Less Accumulated Depreciation                             | (2,00,000)     | (1,00,000)     |
|             |                                                           | 24,00,000      | 19,00,000      |
| (6)         | Intangible Assets                                         |                |                |
|             | Goodwill                                                  | 4,00,000       | 3,00,000       |

Additional Information :

- (i)  $\gtrless$  1,00,000, 12% Debentures were issued on 1<sup>st</sup> April, 2021.
- (ii) A piece of machinery costing  $\neq$  80,000 on which accumulated depreciation was  $\neq$  40,000, was sold at a gain of  $\neq$  10,000.

Calculate cash flows from 'Investing Activities' and 'Financing Activities'. 6



#### भाग ख

#### विकल्प - II

# (अभिकलित्र लेखांकन)

1

1

1

🕀 www.studentbro.in

- 27. (i) निम्नलिखित में से एक उपाख्यान (लेजेंड) को एक चार्ट पर पुन:स्थापित किया जा सकता है :
  - (a) केवल किनारे पर
  - (b) कहीं भी
  - (c) केवल दायीं ओर
  - (d) x-अक्ष के तल पर

#### अथवा

- (ii) निम्नलिखित में से कौन-से अभिकलित्र लेखा प्रणाली के पाँच स्तम्भ हैं :
  - (a) आँकड़े, प्रतिवेदन, बही, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर
  - (b) आँकड़े, लोग, कार्यविधि, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर
  - (c) लोग, कार्यविधि, बही, आँकड़े, खातों के चार्ट
  - (d) ऑकड़े, कोडिंग, कार्यविधि, नियम, निर्गत

28. एक समूह का सृजन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा मेन्यू उपयोग किया जाता है : 1

- (a) गेटवे टू टेली > मास्टर > लेखांकन सूचना > प्रदर्शन
- (b) गेटवे टू टेली > मास्टर > संपादन > लेखांकन सूचना
- (c) गेटवे टू टेली > मास्टर > लेखांकन सूचना > सृजन
- (d) गेटवे टू टेली > मास्टर > आल्टर > लेखांकन सूचना
- 29. निम्नलिखित में से उस लेखांकन सूचना उप-प्रणाली को पहचानिए जो विक्रय एवं किए गए संग्रहण के आवधिक प्रतिवेदनों को उत्पन्न करती है :
  - (a) रोकड़ तथा बैंक उप-प्रणाली
  - (b) विक्रय तथा प्राप्य खाते उप-प्रणाली
  - (c) इन्वेन्टरी उप-प्रणाली
  - (d) बजट उप-प्रणाली

67/3/1

Page 36

**CLICK HERE** 

≫

Get More Learning Materials Here : 💻

# PART B OPTION – II (Computerised Accounting)

- **27.** (i) From the following a legend can be repositioned on a chart :
  - (a) On the corner only
  - (b) Anywhere
  - (c) On right-side only
  - (d) On the bottom of x-axis

## OR

- (ii) Which of the following are the five pillars of computerised accounting system :
  - (a) Data, Report, Ledger, Hardware, Software
  - (b) Data, People, Procedure, Hardware, Software
  - (c) People, Procedure, Ledger, Data, Chart of Accounts
  - (d) Data, Coding, Procedure, Rules, Output
- **28.** Which of the following menu is used to create a group :
  - (a) Gateway to Tally > master > accounting information > display
  - (b) Gateway to Tally > master > edit > accounting information
  - (c) Gateway to Tally > master > accounting information > create
  - (d) Gateway to Tally > master > alter > accounting information
- **29.** From the following, identify the Accounting information sub-system which generates periodic reports about sales and collections made :
  - (a) Cash and Bank sub-system
  - (b) Sales and Accounts Receivable sub-system
  - (c) Inventory sub-system
  - (d) Budget sub-system

67/3/1

Page 37

**CLICK HERE** 

>>

P.T.O.

🕀 www.studentbro.in

1

1

1

1

**30.** (i) आँकड़ा मदों की अनुपस्थिति का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से एक विशिष्ट मान द्वारा किया जाता है अर्थात् :

- (a) एकल मान
- (b) भण्डारित मान
- (c) बहु मान
- (d) शून्य मान

## अथवा

- (ii) इनपुट आँकड़ों की तुलना किसी अनजान आँकड़ों से करने की प्रक्रिया कहलाती है : 1
  - (a) भण्डारित आँकड़े
  - (b) सूचना आँकड़े
  - (c) आँकड़ा प्रविष्टि
  - (d) ऑंकड़े मान्यीकरण
- 31. 'जातिगत सॉफ्टवेयर' तथा 'विशिष्ट सॉफ्टवेयर' के मध्य किन्हीं तीन आधारों पर अंतर स्पष्ट कीजिए।
- 32. अभिकलित्र लेखांकन प्रणाली की निम्नलिखित दो विशेषताओं को समझाइए :
  - (i) सरल एवं एकीकृत
  - (ii) शुद्धता तथा गति
- 33. (क) चार्ट तैयार करने के चरणों का उल्लेख कीजिए।

अथवा

- (ख) लेखांकन चक्र का क्या अर्थ है ? इसकी आधारभूत अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए । 4
- 34. उस वित्तीय कार्य (फलन) का नाम दीजिए जो 5% कूपन दर के एक बॉण्ड पर उपार्जित ब्याज देता है तथा जहाँ निवेश की निर्गम तथा निपटान तिथि भी दी गई है । इसका वाक्य-विन्यास भी समझाइए ।


67/3/1

 $\sim$ 

Page 38

Get More Learning Materials Here : 💻





1

3

3

4



**30.** (i) Absence of data items is represented by one of the special values from the following i.e. :

- (a) Single value
- (b) Stored value
- (c) Multi value
- (d) Null value

## OR

- (ii) The process of comparing input data with some unknown data is called :
  - (a) Storage data
  - (b) Information data
  - (c) Data entry
  - (d) Data validation
- **31.** Differentiate between 'Generic software' and 'Specific software' on any three bases.
- **32.** Explain the following two features of Computerised Accounting System : *3* 
  - (i) Simple and integrated
  - (ii) Accuracy and speed
- **33.** (a) State the steps to be taken in preparation of a chart.

## OR

- (b) What is meant by Accounting Cycle ? State its basic phases. 4
- **34.** Name the financial function which returns accrued interest on a bond with 5% coupon rate and where issue and settlement date of investment is also given. Also explain its syntax.

67/3/1

Get More Learning Materials Here :

Page 39





1

1

3

4


# STRICTLY CONFIDENTIAL: (FOR INTERNAL AND RESTRICTED USE ONLY) SENIOR SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 2023 MARKING SCHEME – ACCOUNTANCY (SUBJECT CODE—055) (PAPER CODE—67/3/1)

#### **General Instructions: -**

- 1 You are aware that evaluation is the most important process in the actual and correct assessment of the candidates. A small mistake in evaluation may lead to serious problems which may affect the future of the candidates, education system and teaching profession. To avoid mistakes, it is requested that before starting evaluation, you must read and understand the spot evaluation guidelines carefully
- 2 "Evaluation policy is a confidential policy as it is related to the confidentiality of the examinations conducted, Evaluation done and several other aspects. Its' leakage to public in any manner could lead to derailment of the examination system and affect the life and future of millions of candidates. Sharing this policy/document to anyone, publishing in any magazine and printing in News Paper/Website etc may invite action under various rules of the Board and IPC."
- 3 Evaluation is to be done as per instructions provided in the Marking Scheme. It should not be done according to one's own interpretation or any other consideration. Marking Scheme should be strictly adhered to and religiously followed. However, while evaluating, answers which are based on latest information or knowledge and/or are innovative, they may be assessed for their correctness otherwise and due marks be awarded to them.
- 4 The Marking scheme carries only suggested value points for the answers. These are in the nature of Guidelines only and do not constitute the complete answer. The students can have their own expression and if the expression is correct, the due marks should be awarded accordingly.
- 5 The Head-Examiner must go through the first five answer books evaluated by each evaluator on the first day, to ensure that evaluation has been carried out as per the instructions given in the Marking Scheme. If there is any variation, the same should be zero after deliberation and discussion. The remaining answer books meant for evaluation shall be given only after ensuring that there is no significant variation in the marking of individual evaluators
- 6 Evaluators will mark(√) wherever answer is correct. For wrong answer CROSS 'X" be marked.
   Evaluators will not put right (√) while evaluating which gives an impression that answer is correct and no marks are awarded. This is most common mistake which evaluators are committing.
- 7 If a question has parts, please award marks on the right-hand side for each part. Marks awarded for different parts of the question should then be totaled up and written in the left-hand margin and encircled. This may be followed strictly
- 8 If a question does not have any parts, marks must be awarded in the left-hand margin and encircled. This may also be followed strictly
- **9** If a student has attempted an extra question, answer of the question deserving more marks should be retained and the other answer scored out with a note "Extra Question".
- 10 No marks to be deducted for the cumulative effect of an error. It should be penalized only once.
- 11 A full scale of marks <u>80</u> has to be used. Please do not hesitate to award full marks if the answer deserves it.


1





- 12 Every examiner has to necessarily do evaluation work for full working hours i.e., 8 hours every day and evaluate 20 answer books per day in main subjects and 25 answer books per day in other subjects (Details are given in Spot Guidelines)
- 13 Ensure that you do not make the following common types of errors committed by the Examiner in the past:-
  - Leaving answer or part thereof unassessed in an answer book.
  - Leaving answer or part thereof unassessed in an answer book.
  - Wrong totaling of marks awarded on an answer.
  - Wrong transfer of marks from the inside pages of the answer book to the title page.
  - Wrong question wise totaling on the title page.
  - Wrong totaling of marks of the two columns on the title page.
  - Wrong grand total.
  - Marks in words and figures not tallying/not same.
  - Wrong transfer of marks from the answer book to online award list.
  - Answers marked as correct, but marks not awarded. (Ensure that the right tick mark is correctly and clearly indicated. It should merely be a line. Same is with the X for incorrect answer.)
  - Half or a part of answer marked correct and the rest as wrong, but no marks awarded.
- 14 While evaluating the answer books if the answer is found to be totally incorrect, it should be marked as cross (X) and awarded zero (0) marks
- 15 Any un assessed portion, non-carrying over of marks to the title page, or totaling error detected by the candidate shall damage the prestige of all the personnel engaged in the evaluation work as also of the Board. Hence, in order to uphold the prestige of all concerned, it is again reiterated that the instructions be followed meticulously and judiciously.
- 16 The Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the "Guidelines for spot Evaluation" before starting the actual evaluation.
- 17 Every Examiner shall also ensure that all the answers are evaluated, marks carried over to the title page, correctly totaled and written in figures and words.
- 18 The candidates are entitled to obtain photocopy of the Answer Book on request on payment of the prescribed processing fee. All Examiners/Additional Head Examiners/Head Examiners are once again reminded that they must ensure that evaluation is carried out strictly as per value points for each answer as given in the Marking Scheme.





#### MARKING SCHEME

### Senior School Certificate Examination, 2023

### ACCOUNTANCY Paper Code — 67/3/1

|    | EXPECTED ANSWERS / VALUE POINTS                            |        |
|----|------------------------------------------------------------|--------|
|    | PART A<br>(Accounting for Partnership Firms and Companies) |        |
| 1  | (i) Q. Keshav and Karan were partners                      |        |
|    | <b>Ans.</b> (b) ₹ 3,00,000                                 | 1 mark |
|    | OR                                                         | OR     |
|    | (ii) Q. A and B were partners in a firm                    |        |
|    | Ans. (c) Nil                                               | 1 mark |
| 2  | (i) Q is the basis of                                      |        |
|    | Ans. (b) Agreement                                         | 1 mark |
|    | OR                                                         | OR     |
|    | (ii) Q. At the time of change in profit                    |        |
|    | Ans. (c) Old profit-sharing ratio                          | 1 mark |
| 3  | (i) Q. Mehak and Ravish were partners in                   |        |
|    | Ans. (c) Mrs. Ravish's loan                                | 1 mark |
|    | OR                                                         | OR     |
|    | (ii) Q. Surbhi and Leena were partners                     |        |
|    | <b>Ans</b> . (a) 1/10                                      | 1 mark |
| 4. | (i) Q. Sunbeam Ltd. Issued 20,000, 11%                     |        |
|    | <b>Ans.</b> ( c) ₹1,00,000                                 | 1 mark |
|    | OR                                                         | OR     |

|    | (ii) Q. Nargis Ltd. purchased assets of ₹8,00,000                                                                    |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    | <b>Ans.</b> (b) 5,000                                                                                                | 1 mar  |
| 5. | Q. Which of the following statements is true                                                                         |        |
|    | <b>Ans.</b> (a) It is a portion of the uncalled capital to be called only in the event of winding up of the company. | 1 mar  |
| 6. | Q. Gopal, Krishna and Govind are partners                                                                            | 1 mar  |
|    | <b>Ans.</b> (d) 2:1                                                                                                  |        |
| 7. | Q. Assertion(A): Interest on partners loan is debited                                                                | 1      |
|    | Ans. (c) Both Assertion (A) and Reason (R) are correct.                                                              | 1 marl |
| 8. | (i) Q. A share of ₹10 issued at a premium                                                                            |        |
|    | <b>Ans.</b> (d) ₹6                                                                                                   | 1 mar  |
|    | OR                                                                                                                   | OR     |
|    | (ii) Q. A share of ₹ 100 on which ₹70 has been                                                                       |        |
|    | <b>Ans</b> . (b) ₹30                                                                                                 | 1 mar  |
|    | Read the following hypothetical situation                                                                            |        |
| 9. | Q. Divya's amount of guarantee is short                                                                              |        |
|    | <b>Ans</b> . (c) ₹15,000                                                                                             | 1 mar  |
| 0. | Q. The final amount of profit distributed                                                                            |        |
|    | <b>Ans.</b> (d) Anu ₹45,000; Charu ₹30,000; Divya ₹75,000                                                            | 1 mar  |
| 1. | Q. Vikram and Sumit were partners in a firm                                                                          |        |
|    | <b>Ans.</b> (a) ₹45,000                                                                                              | 1 mar  |
| 2. | Q. Rhythm Ltd. took over assets of ₹30,00,000 and                                                                    |        |
|    | Ans. (a) Debited to Goodwill Account                                                                                 | 1 mar  |



| 13. | Q. Isha a                                                    | and Naman were partners in a firm                                                                        |       |                      |                      |                  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|------------------|--|--|
|     | <b>Ans</b> . (b) Gain 1/10                                   |                                                                                                          |       |                      |                      |                  |  |  |
| 14. | Q. A par                                                     | tnership firm has capital employed of                                                                    | •••   |                      |                      |                  |  |  |
|     | Ans. (c)                                                     | ₹20,000                                                                                                  |       |                      |                      | 1 mark           |  |  |
| 15. | Q. On 1 <sup>st</sup> April, 2021, Narmada Ltd. issued 5,000 |                                                                                                          |       |                      |                      |                  |  |  |
|     | <b>Ans.</b> (d) ₹40,000                                      |                                                                                                          |       |                      |                      |                  |  |  |
| 16. | Q. Sunt                                                      | beam Limited issued 4,000,                                                                               |       |                      |                      |                  |  |  |
|     | Ans. (c)                                                     | ) ₹4,00,000                                                                                              |       |                      |                      | 1 mark           |  |  |
| 17. | Q. Kana                                                      | k, Kamal and Kanha are partners                                                                          |       |                      |                      |                  |  |  |
|     | Ans. (i) (                                                   | Calculation of Kanak's share of profit:                                                                  |       |                      |                      |                  |  |  |
|     | F                                                            | Profit for 6 months= 6,00,000 x <u>2,00,000</u><br>20,00,000                                             |       | $\frac{1}{6}$        |                      | (2)              |  |  |
|     |                                                              | = ₹10,000                                                                                                |       |                      |                      |                  |  |  |
|     |                                                              | Books of Kanak, Kamal and JOURNAL                                                                        | d Kan | ha                   |                      | +                |  |  |
|     | Date                                                         | Particulars                                                                                              | LF    | Dr.<br>Amount<br>(₹) | Cr.<br>Amount<br>(₹) |                  |  |  |
|     | 2021<br>Sep 30                                               | Profit & Loss Suspense A/c Dr.<br>To Kanak's Current A/c<br>(Kanak's share of profit till date of death) |       | 10,000               | 10,000               | (1)<br>= 3 marks |  |  |
| 18. | (a) Q. M                                                     | I Ltd. issued 10,000, 8% Debentures                                                                      | •     | 1                    |                      |                  |  |  |
|     | 1                                                            |                                                                                                          |       |                      |                      |                  |  |  |

| Dortioulors                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Particulars                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Amount                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (₹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (₹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (i)                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                     | Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.00.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 00 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (1/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8% Debentures)                                      | 0,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (ii)                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                     | Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.00.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                     | DI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 00 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ·                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                     | Dr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 40 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                     | D1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,40,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                     | Dr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                     | DI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 00,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 00 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,00,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| debentures)                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (iv)                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bank A/c                                            | Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 40 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| To Debenture Allotment A/c                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,40,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 40 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (Allotment money received)                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,40,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = 3 n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OR                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| company forfeited 4,000 shares                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Deelee of                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Particulars                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                     | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -                                                   | Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (4,000 shares forfeited for non-payme ₹7 per share) | ent of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                     | (i)<br>Bank A/c<br>To Debenture Application A/c<br>(Application money received on 10<br>8% Debentures)<br>(ii)<br>Debenture Application A/c<br>To 8% Debentures A/c<br>(Debenture Application money<br>transferred to 8% Debenture A/c)<br>(iii)<br>Debenture Allotment A/c<br>Discount / Loss on Issue of<br>Debentures A/c<br>To 8% Debenture A/c<br>(Allotment money due on 10,000<br>debentures)<br>(iv)<br>Bank A/c<br>To Debenture Allotment A/c<br>(Allotment money received)<br>OR<br>Company forfeited 4,000 shares<br>Books of<br>JOURNAI<br>Particulars | (i)         Bank A/c       Dr.         To Debenture Application A/c         (Application money received on 10,000         8% Debentures)         (ii)         Debenture Application A/c         Dr.         To 8% Debentures A/c         (Debenture Application money         transferred to 8% Debenture A/c         (iii)         Debenture Allotment A/c         (iii)         Debenture Allotment A/c         Debenture Allotment A/c         Debentures A/c         Debentures A/c         Debentures A/c         Debenture Allotment A/c         (Allotment money due on 10,000         debentures)         (iv)         Bank A/c       Dr.         To Debenture Allotment A/c         (Allotment money received) | Internation       Image: Second | Amount       (i)         Bank A/c       Dr.         To Debenture Application A/c       (Application money received on 10,000         8% Debentures)       (ii)         Debenture Application A/c       Dr.         (iii)       (Debenture Application A/c         Debenture Application A/c       Dr.         To 8% Debentures A/c       (Debenture Application money         (Debenture Application money       (Debenture Application money         transferred to 8% Debenture A/c)       (Debenture Allotment A/c         (iii)       Debenture A/c         Debenture Allotment A/c       Dr.         (Allotment money due on 10,000       60,000         debentures)       (Allotment money received)         (iv)       Bank A/c       Dr.         To Debenture Allotment A/c       Mount         (Allotment money received)       (Allotment money received)         OR       Acompany forfeited 4,000 shares         JOURNAL       Dr.       Amount         Particulars       LF       Dr.         JOURNAL       V       Amount         (4,000 shares forfeiture A/c       Dr.       40,000 | AmountAmountAmount(i)Amount( $\bar{\chi}$ )Bank A/cDr.6,00,000To Debenture Application A/c6,00,000(Application money received on 10,0006,00,0008% Debentures Application A/cDr.To 8% Debentures A/c6,00,000(Debenture Application M/cDr.To 8% Debentures A/c6,00,000(Debenture Application money3,40,000(iii)Debenture A/cDiscount / Loss on Issue ofDr.Debentures A/cDr.To 8% Debenture A/c60,000(Allotment money due on 10,0004,00,000debentures A/cDr.To 8% Debenture A/c3,40,000(Allotment money received)3,40,000(iv)Bank A/cDr.To Debenture Allotment A/cDr.(Allotment money received)3,40,000Company forfeited 4,000 sharesIJFDurnALDr.ParticularsLFDo Share Forfeiture A/cDr.To Share Forfeiture A/c12,000To Calls- in – Arrears A/cI(4,000 shares forfeited for non-payment ofI |

|         | Bank A/c<br>Share Forfeiture A/c<br>To Share Capital A/c<br>(2,000 forfeited shares reissued) | Dr.<br>Dr.                                                              |    | 18,000<br>2,000     |               |       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|---------------|-------|
|         | Share Forfeiture A/c<br>To Capital Reserve A/c                                                | Dr.                                                                     |    | 4,000               | 4,000         | (     |
|         | (Gain on reissue of shares transfer<br>Capital Reserve)                                       |                                                                         |    |                     |               | = 3 n |
| Date    | Books of Rama<br>JO<br>Particulars                                                            | URNAL                                                                   | LF | Dr.<br>Amount       | Cr.<br>Amount |       |
| Date    | Particulars<br>Raman's Capital A/c<br>Naman's Capital A/c                                     | Dr.<br>Dr.                                                              | LF |                     | Amount<br>(₹) | (     |
|         | To Manan's Capital A/c<br>(Adjustment entry for Interest on D<br>wrongly charged)             | rawings                                                                 |    |                     | 810           |       |
| Particu | g Notes:<br>Ilars<br>st on Drawings , now credited                                            | Raman<br>₹<br>1,080                                                     | 1  | Manan<br>₹<br>1,440 | Naman<br>₹    |       |
| Interes | b be debited ( $₹2,520$ in 2:1:1)                                                             | (1,260                                                                  | )  | (630)               | (630)         | (     |
|         |                                                                                               | 180                                                                     | Dr | 810 Cr              | 630 Dr        | 3 m   |
|         | ment                                                                                          | : Full credit be given if working notes are prepared in any other form) |    |                     |               |       |



| Dr                                                                |                    |                                  | Cr          |       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------|-------|
| Particulars                                                       | Amount<br>₹        | Particulars                      | Amount<br>₹ |       |
| To Interest on Capital A/c<br>Arun -3,000<br>Barun- <u>1,800</u>  | 4,800 1            | By P & L A/c<br>(₹26,800-₹3,000) | 23,800 1/2  |       |
| To Salary A/c<br>Barun                                            | 4,000 1/2          |                                  |             |       |
| To Profit transferred to<br>Partners' Capital A/c:<br>Arun -9,000 |                    |                                  |             | = 3 n |
| Barun- <u>6,000</u>                                               | 15,000 1<br>23,800 |                                  | 23,800      |       |






| Ans. Calculation of Goodwill of the firm |                                                                      |                                                                 |        |                   |        |           |  |  |  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------|-----------|--|--|--|
|                                          |                                                                      |                                                                 |        |                   |        |           |  |  |  |
|                                          | Total Capital of the Firm based on Nisha's share $-00000 \times 4/1$ |                                                                 |        |                   |        |           |  |  |  |
|                                          | = 90,000  x  4/1<br>= ₹ 3,60,000                                     |                                                                 |        |                   |        |           |  |  |  |
|                                          | =₹3,60,000                                                           |                                                                 |        |                   |        |           |  |  |  |
|                                          | Actual capital of the Firm = 1,00,000+ 80,000 + 90,000               |                                                                 |        |                   |        |           |  |  |  |
|                                          | = ₹2,70,000                                                          |                                                                 |        |                   |        |           |  |  |  |
|                                          |                                                                      | Goodwill of the Firm = 3,60,000 - 2,70,00                       | 0      |                   |        |           |  |  |  |
|                                          | = \$90,000 = 2,70,000 = 2,70,000                                     |                                                                 |        |                   |        |           |  |  |  |
|                                          | - \70,000                                                            |                                                                 |        |                   |        |           |  |  |  |
|                                          | Calculation of Nisha's share of goodwill premium= ₹90,000 x 1/4      |                                                                 |        |                   |        |           |  |  |  |
|                                          | = ₹22,500                                                            |                                                                 |        |                   |        |           |  |  |  |
| - \\\22,500                              |                                                                      |                                                                 |        |                   |        |           |  |  |  |
|                                          | Books of Vanshika and Shikha                                         |                                                                 |        |                   |        |           |  |  |  |
|                                          |                                                                      | JOURNAL                                                         | T      |                   |        |           |  |  |  |
|                                          | Date                                                                 | Particulars                                                     | LF     | Amount<br>Dr. (₹) | Amount |           |  |  |  |
|                                          |                                                                      |                                                                 |        | Dr (₹)            | Cr (₹) |           |  |  |  |
|                                          |                                                                      | Bank / Cash A/c Dr.                                             |        | 90,000            |        |           |  |  |  |
|                                          |                                                                      | To Nisha's Capital A/c                                          |        |                   | 90,000 | ( 1/2 )   |  |  |  |
|                                          |                                                                      | (Capital brought in by Nisha)                                   |        |                   | )      |           |  |  |  |
|                                          |                                                                      |                                                                 |        |                   |        | +         |  |  |  |
|                                          |                                                                      |                                                                 |        |                   |        |           |  |  |  |
|                                          |                                                                      | Nisha's Current A/c Dr.                                         |        | 22,500            |        |           |  |  |  |
|                                          |                                                                      | To Vanshika's Capital A/c                                       |        |                   | 11,250 | (1)       |  |  |  |
|                                          |                                                                      | To Shikha's Capital A/c<br>(Adjustment for goodwill premium not |        |                   | 11,250 |           |  |  |  |
|                                          |                                                                      | brought in by Nisha)                                            |        |                   |        | = 3 marks |  |  |  |
|                                          |                                                                      |                                                                 |        |                   |        |           |  |  |  |
|                                          |                                                                      |                                                                 |        |                   |        |           |  |  |  |
|                                          |                                                                      |                                                                 |        |                   |        |           |  |  |  |
|                                          |                                                                      |                                                                 |        |                   |        |           |  |  |  |
|                                          |                                                                      |                                                                 |        |                   |        |           |  |  |  |
|                                          | Q. Pawan Ltd. was registered with                                    |                                                                 |        |                   |        |           |  |  |  |
|                                          | Ans.                                                                 |                                                                 |        |                   |        |           |  |  |  |
|                                          | 7 113.                                                               | Pawan Ltd.                                                      |        |                   |        |           |  |  |  |
|                                          |                                                                      | BALANCE SHEET (Ex                                               | tract) |                   |        |           |  |  |  |
|                                          |                                                                      | (                                                               | - ,    |                   |        | 1         |  |  |  |





|       | Amount           | Note | Particulars                        |
|-------|------------------|------|------------------------------------|
|       | (₹)              | No.  |                                    |
|       |                  |      | I. Equity and Liabilities          |
| (     |                  |      | 1. Shareholders Funds              |
|       | 7,90,000         | 1    | (a) Share Capital                  |
|       |                  |      | Notes to Accounts:                 |
|       | Amount<br>₹      |      | Particulars                        |
|       |                  |      | 1. Share Capital                   |
| (     | <u>10,00,000</u> |      | Authorised Capital                 |
|       |                  |      | 1,00,000 equity shares of ₹10 each |
| (     | <u>8,00,000</u>  |      | Issued Capital                     |
|       |                  |      | 80,000 equity shares of ₹10 each   |
|       |                  |      | Subscribed Capital                 |
|       |                  |      | Subscribed & fully paid-up         |
| (1    | 7,80,000         |      | 78,000 shares of ₹10 each          |
| (1    | <u>10,000</u>    |      | Add: Share Forfeiture A/c          |
| = 4 1 | 7,90,000         |      |                                    |






| Dr                                                                |                            | Realisatio                            | on A/c                                                               |                                     | Cr                              |         |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------|
| Partic                                                            | culars                     | Amount                                | Particulars                                                          |                                     | Amount                          |         |
| To Land & Building<br>A/c<br>To Stock A/c (1/2)<br>To Debtors A/c |                            | ₹<br>3,50,000<br>3,00,000<br>2,00,000 | By Provision for<br>Debts A/c<br>By Creditors A/c<br>By Mrs. Chand's | (1/2)                               | ₹<br>10,000<br>70,000<br>20,000 |         |
| (1/2)                                                             | vi's Capital A/c<br>sh A/c | 20,000 40,000                         |                                                                      | 6,00,000<br><u>,80,000</u><br>ed to | 7,80,000                        | = 4 mar |
|                                                                   |                            | 9,10,000                              | Ravi 15,000<br>Kavi 9,000<br>Chand <u>6,000</u>                      | 100 5. (1)                          | 30,000<br><b>9,10,000</b>       |         |
|                                                                   |                            |                                       |                                                                      |                                     |                                 |         |
| (a) <b>Q. l</b><br>Ans.                                           | Lotus Ltd. invited         | Bool                                  | ns for issuing<br>ks of Lotus Ltd.<br>JOURNAL                        |                                     |                                 |         |
| Date                                                              | Particulars                |                                       | L                                                                    | F Dr.<br>Amount<br>(₹)              | Cr.<br>Amount<br>(₹)            |         |
|                                                                   | (i)                        |                                       |                                                                      | 7,00,000                            |                                 | (1/2)   |
|                                                                   | Bank A/c                   | Share Applic<br>oney receive          |                                                                      |                                     | 7,00,000                        | +       |

| (iii)                                                                                                             |               |          |                      | +   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------------|-----|
| Equity Share Allotment A/c<br>To Equity Share Capital A/c<br>To Securities Premium / Secur<br>Premium Reserve A/c | Dr.<br>rities | 7,20,000 | 4,00,000<br>3,20,000 | (1) |
| (Share allotment money due at pro                                                                                 | emium)        |          |                      | +   |
| (iv)                                                                                                              |               |          |                      |     |
| Bank A/c                                                                                                          | Dr.           | 4,15,800 |                      |     |
| Calls- in- Arrears A/c                                                                                            | Dr.           | 4,200    |                      |     |
| To Share Allotment A/c                                                                                            |               |          | 4,20,000             |     |
| (Allotment money received excep shares)                                                                           | t on 800      |          |                      | (1) |
| Alternatively                                                                                                     | _             |          |                      |     |
| Bank A/c                                                                                                          | Dr.           | 4,15,800 |                      |     |
| To Share Allotment A/c                                                                                            |               |          | 4,15,800             | +   |
| (Allotment money received excep shares)                                                                           | t on 800      |          |                      |     |
| (v)                                                                                                               |               |          |                      |     |
| Share Capital A/c                                                                                                 | Dr.           | 0.000    |                      |     |
| Securities Premium / Securities                                                                                   |               | 8,000    |                      |     |
| Premium Reserve A/c                                                                                               | Dr.           |          |                      |     |
| To Calls-in –Arrears A/c                                                                                          |               | 3,200    |                      |     |
| To Share Forfeiture A/c                                                                                           |               |          | 4,200                |     |
| (800 shares forfeited for non- pay<br>allotment money)                                                            | ment of       |          | 7,000                | (1) |
| Alternatively                                                                                                     |               |          |                      |     |
| Share Capital A/c                                                                                                 | Dr.           | 8,000    |                      |     |
| Securities Premium / Securities                                                                                   |               |          |                      |     |
| Premium Reserve A/c                                                                                               | Dr.           | 3,200    |                      |     |
| To Share Allotment A/c                                                                                            |               |          | 4,200                |     |
| To Share Forfeiture A/c                                                                                           |               |          | 7,000                |     |
| (800 shares forfeited for non- pay<br>allotment money)                                                            | ment of       |          |                      | +   |
|                                                                                                                   |               |          |                      |     |
|                                                                                                                   |               |          |                      |     |






|          | (vi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |               |                      |              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|----------------------|--------------|
|          | Bank A/c Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 7,200         |                      | (1)          |
|          | Share Forfeiture A/c Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 800           |                      |              |
|          | To Share Capital A/c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |               | 8,000                |              |
|          | (Reissue of forfeited shares)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |               | 0,000                |              |
|          | (Reissue of forfenced shares)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |               |                      | +            |
|          | (vii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |               |                      |              |
|          | Share Forfeiture A/c Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 6,200         |                      |              |
|          | To Capital Reserve A/c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |               | 6,200                | ( 1/2        |
|          | (Gain on reissue of shares transferred to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |               |                      |              |
|          | Capital Reserve)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |               |                      | =            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |               |                      | 6 ma         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |               |                      |              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |               |                      |              |
|          | OR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |               |                      | O            |
| (b) Q. ' | Fulip Ltd. invited applications for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |               |                      |              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |               |                      |              |
| Ans.     | <b>Books of Tulip Ltd.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |               |                      |              |
|          | JOURNAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |               |                      |              |
| Date     | Particulars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LF | Dr.<br>Amount | Cr.                  |              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | Amount<br>(₹) | Amount               |              |
|          | ()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |               | (₹)                  |              |
|          | (i)<br>Bank A/c Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 12,00,000     |                      |              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 12,00,000     | 12,00,000            | ( 1/2        |
|          | To Equity Share Application A/c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |               | 12,00,000            |              |
|          | (Amplication money received on 2 00 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |               |                      |              |
|          | (Application money received on 3,00,000 shares)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |               |                      |              |
|          | shares)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |               |                      | +            |
|          | shares)<br>(ii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |               |                      | +            |
|          | shares)<br>(ii)<br>Equity Share Application A/c Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 12,00,000     |                      | +            |
|          | shares)<br>(ii)<br>Equity Share Application A/c Dr.<br>To Equity Share Capital A/c                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 12,00,000     | 4,80,000             |              |
|          | shares)<br>(ii)<br>Equity Share Application A/c Dr.<br>To Equity Share Capital A/c<br>To Securities Premium A/c /                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 12,00,000     | 4,80,000             |              |
|          | shares)<br>(ii)<br>Equity Share Application A/c Dr.<br>To Equity Share Capital A/c<br>To Securities Premium A/c /<br>Securities Premium Reserve A/c                                                                                                                                                                                                                                            |    | 12,00,000     | 4,80,000<br>4,80,000 |              |
|          | shares)<br>(ii)<br>Equity Share Application A/c Dr.<br>To Equity Share Capital A/c<br>To Securities Premium A/c /<br>Securities Premium Reserve A/c<br>To Equity Share Allotment A/c                                                                                                                                                                                                           |    | 12,00,000     |                      |              |
|          | shares)<br>(ii)<br>Equity Share Application A/c Dr.<br>To Equity Share Capital A/c<br>To Securities Premium A/c /<br>Securities Premium Reserve A/c<br>To Equity Share Allotment A/c<br>(Application money transferred to Share                                                                                                                                                                |    | 12,00,000     | 4,80,000             | (1 ½         |
|          | shares)<br>(ii)<br>Equity Share Application A/c Dr.<br>To Equity Share Capital A/c<br>To Securities Premium A/c /<br>Securities Premium Reserve A/c<br>To Equity Share Allotment A/c                                                                                                                                                                                                           |    | 12,00,000     | 4,80,000             | (1 ½         |
|          | shares)<br>(ii)<br>Equity Share Application A/c Dr.<br>To Equity Share Capital A/c<br>To Securities Premium A/c /<br>Securities Premium Reserve A/c<br>To Equity Share Allotment A/c<br>(Application money transferred to Share<br>Capital and Securities Premium; excess                                                                                                                      |    | 12,00,000     | 4,80,000             | (1 ½         |
|          | shares)<br>(ii)<br>Equity Share Application A/c Dr.<br>To Equity Share Capital A/c<br>To Securities Premium A/c /<br>Securities Premium Reserve A/c<br>To Equity Share Allotment A/c<br>(Application money transferred to Share<br>Capital and Securities Premium; excess                                                                                                                      |    |               | 4,80,000             | (1 ½         |
|          | shares) (ii) Equity Share Application A/c Dr. To Equity Share Capital A/c To Securities Premium A/c / Securities Premium Reserve A/c To Equity Share Allotment A/c (Application money transferred to Share Capital and Securities Premium; excess amount adjusted to Share Allotment A/c)                                                                                                      |    | 9,60,000      | 4,80,000<br>2,40,000 | (1 ½         |
|          | shares)<br>(ii)<br>Equity Share Application A/c Dr.<br>To Equity Share Capital A/c<br>To Securities Premium A/c /<br>Securities Premium Reserve A/c<br>To Equity Share Allotment A/c<br>(Application money transferred to Share<br>Capital and Securities Premium; excess<br>amount adjusted to Share Allotment A/c)<br>(iii)                                                                  |    |               | 4,80,000             | (1 ½         |
|          | shares)<br>(ii)<br>Equity Share Application A/c Dr.<br>To Equity Share Capital A/c<br>To Securities Premium A/c /<br>Securities Premium Reserve A/c<br>To Equity Share Allotment A/c<br>(Application money transferred to Share<br>Capital and Securities Premium; excess<br>amount adjusted to Share Allotment A/c)<br>(iii)<br>Equity Share Allotment A/c Dr.                                |    |               | 4,80,000<br>2,40,000 | (1 ½         |
|          | shares)<br>(ii)<br>Equity Share Application A/c Dr.<br>To Equity Share Capital A/c<br>To Securities Premium A/c /<br>Securities Premium Reserve A/c<br>To Equity Share Allotment A/c<br>(Application money transferred to Share<br>Capital and Securities Premium; excess<br>amount adjusted to Share Allotment A/c)<br>(iii)<br>Equity Share Allotment A/c Dr.<br>To Equity Share Capital A/c |    |               | 4,80,000<br>2,40,000 | + (1 ½ + (1½ |





| (iv)<br>Bank A/c                                                                                      | Dr         | 7,02,000            |           | (1 ½ )    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------|-----------|
| Calls- in Arrears A/c<br>To Equity Share Allotment A/<br>(Allotment money received)                   | Dr<br>c    | 18,000              | 7,20,000  | +         |
| (v)<br>Equity Share First & Final Call A/c<br>To Equity Share Capital A/c                             | Dr         | 14,40,000           | 9,60,000  | (1)       |
| To Securities Premium A/c /<br>Securities Premium Reserve<br>(Share First & Final Call money due      |            |                     | 4,80,000  | +         |
| (vi)<br>Bank A/c<br>Calls- in- Arrears A/c                                                            | Dr.<br>Dr. | 14,04,000<br>36,000 | 14 40 000 | (1)       |
| To Equity Share First & Final Cal<br>(Share first and final call money rec<br>except on 6,000 shares) |            |                     | 14,40,000 | = 6 marks |





| Dr.                |               | REV.          | ALUATIO       | DN A/c                          |               |               | Cr.      |       |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|----------|-------|
| Particular         | ·s            |               | Amou          | int Particul                    | ars           | I             | Amount   |       |
|                    |               |               | ₹             |                                 |               |               | ₹        |       |
| To Outsta          | nding Sal     | aries A/c     | 2,0           | 000 By Bad                      |               |               |          |       |
|                    | (1/           | 2)            |               | Recover                         | ed A/c (1/    | (2)           | 12,000   | (2)   |
| To Profit          | on Revalı     | ation         |               |                                 |               |               |          |       |
| transferre         |               |               |               |                                 |               |               |          |       |
| Capital A/         |               | (1)           | 10,0          | 000                             |               |               |          |       |
|                    | 6,000         |               |               |                                 |               |               |          | +     |
| B-4                | 4,000         |               |               |                                 |               |               |          |       |
|                    |               |               | 12,0          | 000                             |               |               | 12,000   |       |
| D                  |               | P             |               |                                 | A / -         |               | C        |       |
| Dr.<br>Particulars | А             | B PA          | ARTNERS       | S' CAPITAL A<br>Particulars     | A/c<br>A      | В             | Cr.      |       |
| To Bal c/d         | ₹<br>2,12,200 | ₹<br>1,74,800 | ₹<br>1,00,000 | By Bal b/d                      | ₹<br>1,60,000 | ₹<br>1,40,000 | ₹        |       |
|                    | 2,12,200      | 1,74,000      | 1,00,000      |                                 | 1,00,000      | 1,40,000      | -        |       |
|                    |               |               |               | By General                      |               |               |          |       |
|                    |               |               |               | ReserveA/c                      | 15,000        | 10,000        | -        |       |
|                    |               |               |               | By Investment                   |               |               |          |       |
|                    |               |               |               | Fluctuation<br>Fund A/c         | 1,200         | 800           | -        |       |
|                    |               |               |               | 1/2                             |               |               |          |       |
|                    |               |               |               | By Premium                      |               |               |          | (4)   |
|                    |               |               |               | for Goodwill<br>A/c 1           | 30,000        | 20,000        | -        |       |
|                    |               |               |               | _                               |               |               |          |       |
|                    |               |               |               | By                              | 6,000         | 4,000         | _        |       |
|                    |               |               |               | Revaluation $A/c$ $\frac{1}{2}$ | - )           | ,             |          | =     |
|                    |               |               |               |                                 |               |               |          |       |
|                    |               |               |               | By Bank A/c $\frac{1}{2}$       | -             | -             | 1,00,000 |       |
|                    |               |               |               |                                 |               |               |          |       |
|                    | 2,12,200      | 1,74,800      | 1,00,000      |                                 | 2,12,200      | 1,74,800      | 1,00,000 | 6 mar |
|                    | <u> </u>      | <u> </u>      | 1             | <u> </u>                        |               | <u> </u>      | <u> </u> |       |
|                    |               |               |               | OR                              |               |               |          | OR    |
|                    |               |               |               |                                 |               |               |          |       |
| (h) <b>A</b> •     | ita Coota     | and Site      | WORD DOP      | tners in a firi                 | m             |               |          |       |
| (d) Q. An<br>Ans.  | na, Geela     | i anu sita    | were par      |                                 |               |               |          |       |
| AIIS.              |               |               |               |                                 |               |               |          |       |
|                    |               |               |               |                                 |               |               |          |       |



| Particulars            | 3            |             | Amount<br>₹       | Particular                  | rs            | А             | lmount<br>₹   |                                     |
|------------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| To Bad De              | ebts A/c     | l⁄2         | 10,000            | By Land                     | & Buildin     | g 1           | ,23,000       |                                     |
| To Provisi             | on for Dou   | ubtful      |                   | A/c                         |               |               |               |                                     |
| Debts A                | 4/c          | 1/2         | 13,000            | 1/2                         |               |               |               |                                     |
| To Profit t            | ransferred   | to          |                   |                             |               |               |               | (2)                                 |
| Partner                | rs Capital A | A/c's:      |                   |                             |               |               |               |                                     |
|                        |              | 1⁄2         |                   |                             |               |               |               |                                     |
| Anita- 4               |              |             | 1                 |                             |               |               |               |                                     |
| Geeta- 4               |              |             | 1,00,000          |                             |               |               |               |                                     |
| Sita- <u>2</u>         | <u>0,000</u> |             | 1,23,000          |                             |               | 1             | ,23,000       | +                                   |
|                        |              |             | 1,23,000          |                             |               | 1             | ,23,000       |                                     |
| Dr.                    |              |             |                   |                             |               |               | Cr.           |                                     |
| Dr.<br>Particulars     | Anita        | Geeta       | NERS' CAI<br>Sita | PITAL A/C<br>Particulars    | Anita         | Geeta         | Cr.<br>Sita   |                                     |
| То                     | ₹            | ₹<br>80,000 | ₹<br>40,000       | By Bal                      | ₹<br>2,00,000 | ₹<br>2,00,000 | ₹<br>1,00,000 |                                     |
| Anita's<br>Capital A/c |              | 00,000      |                   | b/d                         | _,,           | _,,           | 1,00,000      | 17                                  |
| To Bank<br>A/c         | 80,000       | -           | -                 | By<br>General<br>Reserve    | 12,000        | 12,000        | 6,000         | <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x<br>No |
| То                     |              |             |                   | A/c                         |               |               |               | Mar                                 |
| Anita's<br>Loan A/c    | 2,92,000     | -           | -                 | By<br>Geeta's<br>Capital    | 80,000        | -             | -             | Fo                                  |
| To Bal                 | -            | 1,72,000    | 86,000            | A/c                         |               |               |               | Bal b                               |
| c/d                    |              | ,. ,        |                   | By Sita's<br>Capital<br>A/c | 40,000        | -             | -             | (4)<br>=                            |
|                        |              |             |                   | By<br>Revaluation<br>A/c    | 40,000        | 40,000        | 20,000        | 6 mai                               |
|                        | 3,72,000     | 2,52,000    | 1,26,000          |                             | 3,72,000      | 2,52,000      | 1,26,000      |                                     |

| Dr.                | Trisha <sup>3</sup>                   | 's Capital A/c             | Cr.      |                               |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|-------------------------------|
| Particulars        | Amount                                | Particulars                | Amount   |                               |
|                    | ₹                                     |                            | ₹        |                               |
| To Drawings A/     | /c 20,000                             | 0 By Bal b/d               | 3,00,000 |                               |
| To Trisha's Exe    | cutors A/c 4,60,000                   | 0 By General Reserve A/c   | 20,000   |                               |
|                    |                                       | By Salary to Trisha        | 20,000   | <sup>1</sup> / <sub>2</sub> X |
|                    |                                       | By Anisha's Capital A/c    | 80,000   | /2 A                          |
|                    |                                       | By Rishika's Capital A/c   | 40,000   |                               |
|                    |                                       | By P&L Suspense A/c        | 20,000   | (4)                           |
|                    | 4,80,000                              |                            | 4,80,000 |                               |
| Working Notes:     |                                       |                            |          | +                             |
|                    | <b>2 1 2 0 0 0 0</b>                  |                            |          |                               |
| (i) Share of Pr    | to fit= 150000 x $\underline{4}$ x 12 | $\underline{2} = ₹ 20,000$ |          | (1/)                          |
|                    | 12                                    | 5                          |          | ( 1/2 )                       |
| (ii) Goodwill o    | of the Firm= $4,50,000$ 3             | x 2 =₹ 3,00,000            |          | +                             |
| Trisha's share of  | f Goodwill = 3,00,000                 | x <u>2</u> =₹1,20,000      |          | (1)                           |
|                    |                                       | 5                          |          | +                             |
| (iii) Salary to Tr | risha = 15,000 + <u>15,000</u>        | <u>0</u> =₹20,000          |          |                               |
|                    | 3                                     |                            |          | ( ½ )<br>=6 mai               |
| (a) Q. On 1st Oct  | tober, 2021 Pihu Ltd.                 | issued                     |          |                               |
|                    |                                       |                            |          |                               |
|                    |                                       |                            |          |                               |
|                    |                                       |                            |          |                               |
|                    |                                       |                            |          |                               |
|                    |                                       |                            |          |                               |
|                    |                                       |                            |          |                               |
|                    |                                       |                            |          |                               |
|                    |                                       |                            |          |                               |
|                    |                                       |                            |          |                               |
| 1                  |                                       |                            |          |                               |
|                    |                                       |                            |          |                               |




| (i)<br>Bank A/cDr.10,50,000To Debenture Application & Allotment A/c<br>(Application money received on 9% Debentures)10,50,000(ii)<br>Debenture Application & Allotment A/c<br>Discount/Loss on issue of Debentures A/c Dr.<br>To 9% Debentures A/c10,50,000Jiscount/Loss on issue of Debentures A/c<br>(Debenture application money transferred to 9%<br>Debentures Account)15,00,000 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Debenture Application & Allotment A/c Dr.10,50,000Discount/Loss on issue of Debentures A/c Dr.4,50,000To 9% Debentures A/c15,00,000(Debenture application money transferred to 9%)15,00,000                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (iii)       Statement of Profit & Loss       Dr.       3,50,000         Securities Premium / Securities       3,50,000       1,00,000         To Discount/Loss on Issue of Debentures A/c       1,00,000       4,50,000         (Discount / loss on issue of debentures written off)       3 n                                                                                        |




|          | Amount<br>Cr (₹) | Amount<br>Dr (₹) | LF | Particulars                                                                   | Date  |
|----------|------------------|------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
|          |                  |                  |    | (i)                                                                           | 2021  |
|          |                  | 20,00,000        |    | Land A/c Dr.                                                                  | Apr 1 |
| (1)      | 20,00,000        |                  |    | To Mona Ltd                                                                   |       |
| +        |                  |                  |    | (Land purchased from Mona Ltd)                                                |       |
|          |                  |                  |    | (ii)                                                                          |       |
| ( 1/2    |                  | 10,00,000        |    | Mona Ltd Dr                                                                   |       |
| (72      | 10,00,000        |                  |    | To Bank A/c                                                                   |       |
| +        |                  |                  |    | (Purchase consideration partly settled<br>by issuing a cheque)                |       |
| (1)      |                  | 5,00,000         |    | (iii)Mona Ltd Dr                                                              |       |
| ( 1/2    | 5,00,000         | 5,00,000         |    | To Bills Payable A/c                                                          |       |
| +        | 2,00,000         |                  |    | (Purchase consideration partly settled<br>by accepting a bill of exchange)    |       |
|          |                  | 5,00,000         |    | (iv)Mona Ltd Dr                                                               |       |
|          | 5,00,000         | 5,00,000         |    | To 10% Debentures A/c                                                         |       |
|          | 5,00,000         |                  |    | (Remaining Purchase consideration<br>settled by issuing 5,000 10% debentures) |       |
| (1)      |                  |                  |    | Alternatively (for (ii) +(iii)+ (iv))                                         |       |
|          |                  | 20,00,000        |    | Mona Ltd Dr                                                                   |       |
|          | 10,00,000        |                  |    | To Bank A/c                                                                   |       |
| =        | 5,00,000         |                  |    | To Bills Payable A/c                                                          |       |
|          | 5,00,000         |                  |    | To 10% Debentures A/c                                                         |       |
|          |                  |                  |    | (Purchase consideration settled by                                            |       |
| 3 ma     |                  |                  |    | issuing a cheque, accepting a bill of                                         |       |
| =<br>3+3 |                  |                  |    | exchange and issuing 5,000 10% debentures)                                    |       |
|          |                  |                  |    |                                                                               |       |
| =        |                  |                  |    |                                                                               |       |
| 6 ma     |                  |                  |    |                                                                               |       |



|     | (A                                                       | PART B<br>OPTION - I<br>nalysis of Financial stat | tements)                                                                  |                                  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| 27. | (i) <b>Q. Which of the follow</b>                        | ving is <i>not</i>                                |                                                                           |                                  |  |  |  |
|     | Ang (a) Promistory Potio                                 |                                                   |                                                                           | 1 mark                           |  |  |  |
|     | Ans (c) Proprietary Ratio                                | OR                                                |                                                                           | OR                               |  |  |  |
|     | (ii) Q. Which of the follow                              | wing is a tool                                    |                                                                           |                                  |  |  |  |
|     | Ans (a) Cash Flow Statem                                 | ent                                               |                                                                           | 1 mark                           |  |  |  |
| 28. | (i) Q. the Debt- Equity R                                | atio of a company                                 | •                                                                         |                                  |  |  |  |
|     | Ans (b) Issue of 9% Deber                                | ntures ₹4 00 000                                  |                                                                           | 1 mark                           |  |  |  |
|     | Ans (b) Issue of 9% Debentures ₹4,00,000                 |                                                   |                                                                           |                                  |  |  |  |
|     | OR                                                       |                                                   |                                                                           |                                  |  |  |  |
|     | (ii)Q. During the year ended 1 <sup>st</sup> March, 2022 |                                                   |                                                                           |                                  |  |  |  |
|     | Ans (b) 3 times                                          |                                                   |                                                                           | 1 mark                           |  |  |  |
| 29. | Q. Which of the following                                | transactions                                      |                                                                           |                                  |  |  |  |
|     | Ans (a) Furniture costing ₹                              | 80,000 sold for ₹75,000                           |                                                                           | 1 mark                           |  |  |  |
| 30. | Q. Which of the following                                | transactions is <i>not</i>                        |                                                                           |                                  |  |  |  |
|     | Ans (a) Purchase of market                               | able securities ₹25,000                           |                                                                           | 1 mark                           |  |  |  |
| 31. | Q. Classify the following i                              | tems under major head                             | ls                                                                        |                                  |  |  |  |
|     | A                                                        |                                                   |                                                                           |                                  |  |  |  |
|     | Ans<br>Item                                              | Major head                                        | Sub head                                                                  |                                  |  |  |  |
|     | (i)Mining Rights                                         | Non- Current Assets                               | Fixed Assets- Intangible                                                  |                                  |  |  |  |
|     |                                                          |                                                   | Assets                                                                    | <sup>1</sup> / <sub>2</sub> mark |  |  |  |
|     |                                                          |                                                   | Alternatively<br>Property Plant &                                         | each                             |  |  |  |
|     |                                                          |                                                   | Property, Plant &<br>Equipment and Intangible<br>Asset- Intangible Assets | <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x 6  |  |  |  |
|     | (ii)Income received in advance                           | Current Liabilities                               | Other Current Liabilities                                                 | =<br>3 marks                     |  |  |  |



|     | (iii)Capital work in<br>progress                                                                                       | Non- Current Assets                        | Fixed Assets<br><i>Alternatively</i><br>Property, Plant & Equipment<br>and Intangible Asset |                                |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
|     | Note:<br>Full credit to be given for<br>the Sub head of (i)Mining                                                      | • • •                                      | e Asset or Fixed Asset under                                                                |                                |  |  |  |
| 32. |                                                                                                                        |                                            | ratios that are calculated to<br>based on effective utilization of                          |                                |  |  |  |
|     | Ans. Significance of Turno                                                                                             | ver Ratios ( <b>any two):</b>              |                                                                                             | ½ mark<br>for identi           |  |  |  |
|     | (i) Inventory Turnover ra<br>finished goods into revenue                                                               |                                            | y of conversion of inventory of                                                             | fication<br>+<br>1 mark<br>for |  |  |  |
|     | (ii) Trade Receivables Turnover ratio indicates the speed with which trade receivables are realized                    |                                            |                                                                                             |                                |  |  |  |
|     | OR                                                                                                                     |                                            |                                                                                             |                                |  |  |  |
|     | It indicates the number of times the trade receivable are turned over and converted into cash in an accounting period. |                                            |                                                                                             |                                |  |  |  |
|     | (iii) Trade Payables Turnover ratio reveals the average payment period.                                                |                                            |                                                                                             |                                |  |  |  |
|     | (iv) Working Capital Turnover ratio reflects the efficiency of the enterprise in utilization of working capital.       |                                            |                                                                                             |                                |  |  |  |
|     | (v) Net Assets or Capital E<br>utilization of capital employ                                                           |                                            | io reflects the efficiency in                                                               |                                |  |  |  |
|     | (vi) Fixed Assets Turnover assets.                                                                                     | • ratio reflects the efficient             | ency in utilization of fixed                                                                |                                |  |  |  |
| 33. | (a) Q. Calculate Gross Pr                                                                                              | ofit Ratio from                            |                                                                                             |                                |  |  |  |
|     | Ans. Gross Profit Ratio =                                                                                              | Gross Profit x 1                           | 00                                                                                          | (1/2)                          |  |  |  |
|     |                                                                                                                        | Revenue from Operation                     |                                                                                             |                                |  |  |  |
|     | Credit Revenue from Opera                                                                                              | ations =Trade Receivabl<br>Trade Receivabl | es Turnover Ratio x Average<br>es                                                           |                                |  |  |  |
|     |                                                                                                                        | $= 6 \times 2,00,000$                      |                                                                                             | (1)                            |  |  |  |
|     |                                                                                                                        | = ₹12,00,000                               |                                                                                             | (1)                            |  |  |  |



| Х                           | $= \underline{x} + 12,00,000$                        |       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|-------|
| <u>3x</u>                   | = 12,00,000                                          |       |
| 4                           |                                                      |       |
| Х                           | $=$ 12,00,000 x $\frac{4}{2}$                        |       |
| Revenue from Operations     | 3                                                    |       |
| Revenue nom operations      | 01 X (10,00,000                                      | (     |
| Cost of Revenue from Ope    | erations= Average Inventory x Inventory              |       |
|                             | Turnover Ratio                                       |       |
|                             | = 8 x 1,60,000                                       |       |
|                             | = ₹12,80,000                                         | (1    |
|                             |                                                      | ( )   |
| Gross Profit= Revenue from  | m operations - Cost of revenue from operations       |       |
| Nous Cross anofit           | - 16 00 000 12 80 000                                |       |
| now, Gross profit           | = 16,00,000 - 12,80,000<br>= ₹3,20,000               | (1)   |
|                             |                                                      |       |
| Gross Profit Ratio=         | 3,20,000 x 100 = 20%                                 |       |
|                             | 16,00,000                                            | ( )   |
|                             |                                                      | = 4 n |
|                             |                                                      |       |
|                             | OR                                                   | 0     |
|                             |                                                      |       |
| (b)Q. From the following in | nformation, calculate                                |       |
|                             |                                                      |       |
| Ans Working Capital Turne   | over Ratio = <u>Revenue from Operations</u>          |       |
|                             | Working Capital                                      | (     |
| Deveryon from Oracle ti     | na - Cost of Boyomy from Oronting & Cost P           |       |
| Revenue from Operation      | ons = Cost of Revenue from Operations + Gross Profit |       |
|                             | = 3,20,000 + x/5                                     |       |
| Х                           |                                                      |       |
|                             |                                                      |       |
|                             | x = 3,20,000                                         |       |
| 4/5                         | x = 3,20,000<br>ions or $x = ₹ 4,00,000$             |       |
| 4/5<br>Revenue from Operati |                                                      | (1    |



| =_                       | 20,000             |           |                                                                                   |                           | (1)        |
|--------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Now, Working Cap         | oital Turnover rat | io=₹4,00  | ,000/ ₹20,000                                                                     |                           |            |
|                          |                    | = 2       | 20 times                                                                          |                           |            |
|                          |                    |           |                                                                                   |                           | (1) = 4 ma |
| Q. Read the following hy | ypothetical text.  | ••        |                                                                                   |                           |            |
| Ans.                     |                    | Azad Ltd  | l.                                                                                |                           |            |
| Ca                       | ash Flows from 1   | Investing | Activities                                                                        | ,                         |            |
| Particulars              |                    |           | Details                                                                           | Amount                    |            |
|                          |                    |           | ₹                                                                                 | ₹                         |            |
| Purchase of Machinery    |                    |           | $(6,80,000)$ $\frac{1}{2}$                                                        |                           | (2.1)      |
| Sale of Machinery        |                    |           | 50,000 1/2                                                                        |                           | (2 1/2     |
| Purchase of Intangible   | Assets             |           | $\begin{array}{c} (1,00,000) & \frac{1}{2} \\ 1,00,000 & \frac{1}{2} \end{array}$ |                           |            |
| Sale of Non- Current In  | vestments          |           | 1,00,000 /2                                                                       |                           |            |
| Net Cash used in Invest  | ting Activities    |           |                                                                                   | (6,30,000) <sup>1/2</sup> |            |
|                          | Cash Flows from    | n Financi | ng Activities                                                                     |                           | +          |
| Particulars              |                    |           | Details                                                                           | Amount                    |            |
|                          |                    |           | ₹                                                                                 | ₹                         |            |
| Proceeds from issue of   | share capital      |           | 2,00,000 1/2                                                                      |                           |            |
| Proceeds from 12% De     | -                  |           | 1,00,000 1/2                                                                      |                           |            |
| Repayment of Bank Ov     |                    |           | $(5,000)$ $\frac{1}{2}$                                                           |                           | (2 1/2     |
| Payment of Interest on   |                    |           | (3,000) 72<br>(60,000) 1/2                                                        |                           |            |
| Net Cash inflow from F   |                    | ies       | (00,000) 72                                                                       | 2,35,000 1/2              |            |
|                          |                    |           |                                                                                   | _,,                       | +          |
| Working Notes:           |                    |           |                                                                                   |                           |            |
| Dr                       | Mac                | hinery A/ | c                                                                                 | Cr                        |            |
| Particulars              | Amount<br>₹        | Particula | ırs                                                                               | Amount<br>₹               |            |
| To Bal b/d               | 20,00,000          | By Accu   | imulated                                                                          |                           |            |
| To Gain on sale of       |                    | Depre     | eciation A/c                                                                      | 40,000                    | 1          |
|                          | 10,000             | By Bank   | A/c                                                                               | 50,000                    | 1          |
| Machinery A/c            |                    | By Bal c  | e/d                                                                               | 26,00,000                 |            |
|                          | 6,80,000           | Dy Dai C  |                                                                                   |                           |            |
| Machinery A/c            | 6,80,000           | Dy Dai e  |                                                                                   | 26,90,000                 |            |



|     | Dr                                                | Accumulate              | ed Depreciation A/c                                 | Cr       |              |  |  |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------|--|--|
|     | Particulars                                       | Amount                  | Particulars                                         | Amount   |              |  |  |
|     |                                                   | ₹                       |                                                     | ₹        |              |  |  |
|     | To Accumulated                                    |                         | By Bal b/d                                          | 1,00,000 |              |  |  |
|     | Depreciation A/c                                  | 40,000                  | By Depreciation A/c /<br>Statement of Profit & Loss |          | =<br>6 marks |  |  |
|     | To Bal c/d                                        | 2,00,000                | Statement of Florit & Loss                          | 1,40,000 | 0 marks      |  |  |
|     |                                                   | 2,40,000                |                                                     | 2,40,000 |              |  |  |
|     |                                                   |                         |                                                     |          |              |  |  |
|     |                                                   | OPTI                    | RT B<br>ON – II<br>ed Accounting)                   |          |              |  |  |
| 27. | (i) Q. From the following                         | g a legend can          | be                                                  |          |              |  |  |
|     |                                                   |                         |                                                     |          | 1 mark       |  |  |
|     | Ans. (b) Anywhere                                 |                         |                                                     |          |              |  |  |
|     | OR                                                |                         |                                                     |          |              |  |  |
|     | Q. Which of the followin                          | g are the five <b>j</b> | pillars                                             |          |              |  |  |
|     | Ans. (b) Data, People, Pro                        | cedure, Hardw           | are, Software                                       |          | 1 mark       |  |  |
| 28. | Q. Which of the followin                          | g menu is used          | I                                                   |          |              |  |  |
|     | Ans. (c) Gateway to Tally                         | > master > ac           | counting information > create                       |          | 1 mark       |  |  |
| 29. | Q. From the following, i                          | lentify the Acc         | counting information                                |          |              |  |  |
|     | Ans. (b) Sales and Accounts Receivable sub-system |                         |                                                     |          |              |  |  |
| 30. | (i) <b>Q. Absence of data ite</b>                 | ems is represen         | nted                                                |          |              |  |  |
|     | Ans. (d) Null Value                               |                         |                                                     |          | 1 mark       |  |  |
|     |                                                   | OR                      |                                                     |          | OR           |  |  |
|     | (ii) <b>Q. The process of con</b>                 | iparing input.          |                                                     |          |              |  |  |
|     | Ans (d) Data validation                           |                         |                                                     |          | 1 mark       |  |  |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ific software' (any three):                                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Base                                                                                                                                                                                            | es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Generic software                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Specific software                                                                                                   |           |
| (i)N                                                                                                                                                                                            | ature of business                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Small, conventional business                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Large and medium business                                                                                           |           |
| (ii) <b>(</b>                                                                                                                                                                                   | Cost of installation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Low                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Relatively high                                                                                                     |           |
| (iii)<br>secre                                                                                                                                                                                  | Expected level of ecy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Low                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Relatively high                                                                                                     | 1 x 3     |
| (iv)<br>inter                                                                                                                                                                                   | No. of users and their face                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Limited                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | As per specification                                                                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                 | Linkage to other mation system                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Restricted                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Yes                                                                                                                 |           |
| (vi)                                                                                                                                                                                            | Adaptability                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | High                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Relatively high                                                                                                     | 3 mark    |
| (vii)                                                                                                                                                                                           | Training requirements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Low                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Medium                                                                                                              |           |
| (ii) A<br>Ans (i<br>• De                                                                                                                                                                        | mple and integrated<br>ccuracy and speed<br>) <u>Simple and Integrated</u><br>esigned to automate and i                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     | (1 ½)     |
| <ul> <li>(ii) A</li> <li>Ans (i</li> <li>De</li> <li>Ac</li> <li>It 1</li> </ul>                                                                                                                | mple and integrated<br>ccuracy and speed<br>) <u>Simple and Integrated</u><br>esigned to automate and i<br>ccuracy in information alo                                                                                                                                                                                                                                                                  | ntegrate all business ope<br>ong with latest information<br>Organisation capabilitie                                                                                                                                                                                                                                               | on.<br>es to simplify all the business                                                                              | (1 ½)     |
| <ul> <li>(ii) A</li> <li>Ans (i</li> <li>De</li> <li>Ac</li> <li>It i</li> <li>pr</li> <li>(ii) A</li> </ul>                                                                                    | mple and integrated<br>ccuracy and speed<br>) <u>Simple and Integrated</u><br>esigned to automate and i<br>ecuracy in information alo<br>has multilingual and Data<br>ocesses of the organisation                                                                                                                                                                                                      | ntegrate all business ope<br>ong with latest information<br>Organisation capabilitie<br>on easily and cost effectiv                                                                                                                                                                                                                | on.<br>es to simplify all the business<br>vely.                                                                     | +         |
| <ul> <li>(ii) A</li> <li>Ans (i</li> <li>De</li> <li>Ac</li> <li>It i</li> <li>pr</li> <li>(ii) A</li> <li>Pro</li> </ul>                                                                       | mple and integrated<br>ccuracy and speed<br>) <u>Simple and Integrated</u><br>esigned to automate and i<br>ccuracy in information alo<br>has multilingual and Data<br>ocesses of the organisation<br>ccuracy and speed<br>vides user-definable temp                                                                                                                                                    | ntegrate all business ope<br>ong with latest information<br>Organisation capabilitie<br>on easily and cost effectiv<br>plates (Data entry screen                                                                                                                                                                                   | on.<br>es to simplify all the business<br>vely.<br>or forms)                                                        |           |
| <ul> <li>(ii) A</li> <li>Ans (i</li> <li>De</li> <li>Ac</li> <li>It i</li> <li>pr</li> <li>(ii) A</li> <li>Pro</li> <li>Wh</li> </ul>                                                           | mple and integrated<br>ccuracy and speed<br>) <u>Simple and Integrated</u><br>esigned to automate and i<br>ccuracy in information alo<br>has multilingual and Data<br>ocesses of the organisation<br>ccuracy and speed<br>vides user-definable temp<br>ich leads to accurate and                                                                                                                       | ntegrate all business ope<br>ong with latest information<br>of Organisation capabilitie<br>on easily and cost effectiv<br>plates (Data entry screen<br>fast data entry of the tran                                                                                                                                                 | on.<br>es to simplify all the business<br>vely.<br>or forms)<br>nsactions.                                          | + (1 ½) = |
| <ul> <li>(ii) A</li> <li>Ans (i</li> <li>De</li> <li>Ac</li> <li>It i</li> <li>pr</li> <li>(ii) A</li> <li>Pro</li> <li>Wh</li> </ul>                                                           | mple and integrated<br>ccuracy and speed<br>) <u>Simple and Integrated</u><br>esigned to automate and i<br>ecuracy in information alo<br>has multilingual and Data<br>ocesses of the organisation<br>ccuracy and speed<br>vides user-definable temp                                                                                                                                                    | ntegrate all business ope<br>ong with latest information<br>of Organisation capabilitie<br>on easily and cost effectiv<br>plates (Data entry screen<br>fast data entry of the tran                                                                                                                                                 | on.<br>es to simplify all the business<br>vely.<br>or forms)<br>nsactions.                                          | +         |
| <ul> <li>(ii) A</li> <li>Ans (i</li> <li>De</li> <li>Ac</li> <li>It i</li> <li>pro</li> <li>(ii) A</li> <li>Pro</li> <li>Wh</li> <li>It h</li> </ul>                                            | mple and integrated<br>ccuracy and speed<br>) <u>Simple and Integrated</u><br>esigned to automate and i<br>ccuracy in information alo<br>has multilingual and Data<br>ocesses of the organisation<br>ccuracy and speed<br>vides user-definable temp<br>ich leads to accurate and                                                                                                                       | ntegrate all business ope<br>ong with latest information<br>a Organisation capabilition<br>on easily and cost effective<br>plates (Data entry screen<br>fast data entry of the trans<br>ed documents and report                                                                                                                    | on.<br>es to simplify all the business<br>vely.<br>or forms)<br>nsactions.<br>s.                                    | + (1 ½) = |
| <ul> <li>(ii) A</li> <li>Ans (i</li> <li>De</li> <li>Ac</li> <li>It i</li> <li>pro</li> <li>(ii) A</li> <li>Pro</li> <li>Wh</li> <li>It how</li> </ul>                                          | mple and integrated<br>ccuracy and speed<br>() <u>Simple and Integrated</u><br>esigned to automate and i<br>ecuracy in information all<br>has multilingual and Data<br>ocesses of the organisation<br>ccuracy and speed<br>vides user-definable temp<br>ich leads to accurate and<br>elps in generalising desire                                                                                       | ntegrate all business ope<br>ong with latest information<br>a Organisation capabilities<br>on easily and cost effective<br>plates (Data entry screen<br>fast data entry of the trans<br>ed documents and reports<br><b>ken in preparation of a</b>                                                                                 | on.<br>es to simplify all the business<br>vely.<br>or forms)<br>nsactions.<br>s.                                    | + (1 ½) = |
| <ul> <li>(ii) A</li> <li>Ans (i</li> <li>De</li> <li>Ac</li> <li>It i</li> <li>pro</li> <li>(ii) A</li> <li>Pro</li> <li>Wh</li> <li>It how</li> </ul>                                          | mple and integrated<br>ccuracy and speed<br>() <u>Simple and Integrated</u><br>esigned to automate and i<br>ccuracy in information alc<br>has multilingual and Data<br>ocesses of the organisation<br>ccuracy and speed<br>vides user-definable temp<br>ich leads to accurate and<br>elps in generalising desire<br><b>. State the steps to be ta</b><br>ollowing steps are taken to                   | ntegrate all business ope<br>ong with latest information<br>a Organisation capabilities<br>on easily and cost effective<br>plates (Data entry screen<br>fast data entry of the trans<br>ed documents and reports<br><b>ken in preparation of a</b>                                                                                 | on.<br>es to simplify all the business<br>vely.<br>or forms)<br>nsactions.<br>s.                                    | + (1 ½) = |
| <ul> <li>(ii) A</li> <li>Ans (i</li> <li>Do</li> <li>Ac</li> <li>It i</li> <li>pro</li> <li>(ii) A</li> <li>Pro</li> <li>Wh</li> <li>It h</li> <li>(a) Q</li> <li>Ans F</li> </ul>              | mple and integrated<br>ccuracy and speed<br>() <u>Simple and Integrated</u><br>esigned to automate and i<br>ccuracy in information alc<br>has multilingual and Data<br>ocesses of the organisation<br>ccuracy and speed<br>vides user-definable temp<br>ich leads to accurate and<br>elps in generalising desire<br>. State the steps to be ta<br>ollowing steps are taken to<br>Enter data in workshe | ntegrate all business ope<br>ong with latest information<br>a Organisation capabilitie<br>on easily and cost effective<br>plates (Data entry screen<br>fast data entry of the trans<br>ed documents and reports<br><b>ken in preparation of a</b><br>to prepare a chart :                                                          | on.<br>es to simplify all the business<br>vely.<br>or forms)<br>nsactions.<br>s.<br><b>chart.</b><br>nd row titles. | + (1 ½) = |
| <ul> <li>(ii) A</li> <li>Ans (i</li> <li>Do</li> <li>Ao</li> <li>It i</li> <li>pro</li> <li>(ii) A</li> <li>Pro</li> <li>Wh</li> <li>It h</li> <li>(a) Q</li> <li>Ans F</li> <li>(i)</li> </ul> | mple and integrated<br>ccuracy and speed<br>() <u>Simple and Integrated</u><br>esigned to automate and i<br>ccuracy in information alc<br>has multilingual and Data<br>ocesses of the organisation<br>ccuracy and speed<br>vides user-definable temp<br>ich leads to accurate and<br>elps in generalising desire<br>. State the steps to be ta<br>ollowing steps are taken to<br>Enter data in workshe | ntegrate all business ope<br>ong with latest information<br>a Organisation capabilitie<br>on easily and cost effective<br>olates (Data entry screen<br>fast data entry of the trans<br>ed documents and reports<br><b>ken in preparation of a</b><br>to prepare a chart :<br>et with proper column ar<br>sing the pattern from the | on.<br>es to simplify all the business<br>vely.<br>or forms)<br>nsactions.<br>s.<br><b>chart.</b><br>nd row titles. | + (1 ½) = |



|     | <ul> <li>Apply pre-defined chart layout.</li> <li>Apply pre-defined style.</li> <li>Change layout of chart elements</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ½ mark<br>for each<br>step |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|     | <ul> <li>Change the format of the elements.</li> <li>(iv) Add or remove titles or data labels.</li> <li>Add (remove) axis titles.</li> <li>Link a title to a worksheet cell.</li> <li>Add remove data labels.</li> <li>(v) Show or hide a legend.</li> <li>(vi) Display or hide chart axis or gridlines.</li> <li>Display (Hide) primary axes</li> <li>Display (Hide) secondary axes</li> <li>Display (Hide) gridlines.</li> <li>(vii) More or resize a chart.</li> </ul> | = ½ x 8<br>4 marks         |
|     | <ul> <li>(viii) Save the chart.</li> <li>OR</li> <li>(b)Q. What is meant by Accounting Cycle? State its basic phases.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OR                         |
|     | <ul> <li>Ans Accounting cycle means the processes involved in identifying, measuring and communicating the accounting information.</li> <li>The phases of this cycle are as follows:</li> <li>Business transactions are analysed.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              | (1)                        |
|     | <ul> <li>Business transactions are analysed.</li> <li>The transactions are recorded in journal.</li> <li>Journal entries are posted to ledger accounts.</li> <li>A Trial Balance is prepared from balances of accounts.</li> <li>Accounts are reviewed and necessary adjustments are made.</li> </ul>                                                                                                                                                                     | +                          |
|     | <ul> <li>Adjustments are posted in the ledger to prepare adjusted trial balance.</li> <li>Adjusted trial balance is used to prepare the balance sheet and profit and loss account.</li> <li>Financial statements are prepared from the finally adjusted</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        | (3)<br>=4 marks            |
| 34. | ledger and balancing the accounts.<br>Q. Name the financial function which returns accrued<br>Ans The name of the financial function is ACCRINT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -4 marks (1)               |



|                                                                         | Its syntax is                                                          |          |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| ACCRINT (issue, first_interest, settlement, rate, par, frequency, basis |                                                                        |          |
|                                                                         | calc_method).                                                          | +        |
| Where                                                                   |                                                                        |          |
| Issue                                                                   | :is the security's issue date.                                         |          |
| First_interes                                                           | t : is the security's first interest date.                             |          |
| Settlement                                                              | is the security's settlement date. The security settlement date is the | (5)      |
|                                                                         | date after the issue date when the security is traded to the buyer.    |          |
| Rate                                                                    | is the security's annual coupon rate.                                  |          |
| Par                                                                     | is the security's par value. By default par is 1000.                   | =6 marks |
| Frequency                                                               | is the number of coupon payments per year for annual payments.         |          |
| Basis                                                                   | : is the type of day count basis to use.                               |          |
|                                                                         |                                                                        |          |



